

August 29, 2025

To,
The General Manager,
Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400 001

Sub: Open Offer to acquire upto 7,92,118 Equity Shares of Rs. 10/- each of Sayaji Hotels (Indore) Limited ("the Target Company") representing 26% of its Equity Share Capital by Century 21 Officespace Private Limited ("Acquirer") along with Persons Acting in Concert ("PAC"), namely Century 21 Town Planners Private Limited ("PAC 1"), M.P. Entertainment and Developers Private Limited ("PAC 2") and Print Solutions Private Limited ("PAC 3") (PAC 1, PAC 2 and PAC 3 are jointly referred to as the "PACs") at a Price of Rs. 1,250/- per Equity Share under Regulation 3(1) & 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

Ref: Submission of Post- Offer Public Announcement ("Post- Offer PA") by the Acquirer along with the Persons Acting in Concert

Dear Sir/Madam.

Please find enclosed a copy of the Post-Offer Public Announcement ("Post-Offer PA") regarding the aforesaid Open Offer, pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Acquirer, along with the Persons Acting in Concert, has completed all formalities relating to the Open Offer, and the said announcement was published on August 25, 2025, in the same newspapers where the Pre-Offer Public Announcement was earlier published.

S. No.	Newspaper	Language	Editions
1	The Financial Express	English Daily	All Editions
2	Jansatta	Hindi Daily	All Editions
3	Mumbai Lakshdeep	Marathi Daily	Mumbai Edition
4	Madras Mani	Tamil Daily	Chennai Edition
5	Indore Samachar	Hindi Daily	Indore Edition

In this regard, we are enclosing herewith soft copy of the said announcement as published in all the newspapers for your kind perusal. Further the same has been also disseminated by the stock exchange on August 26, 2025.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Sayaji Hotels (Indore) Limited

Raoof Razak Dhanani Managing Director DIN: 00174654

ो सूचना देण्यात येत आहे की, अंजु मलिक यांच्या नावे नों असलेले धरमॅक्स लिमिटेडचे फोलिओ क्र.टीएसई००१२९ ३५ ह. २/- प्रत्येकीचे भाग प्रमाणपत्र क्र.१०११०९ धारक ५० समभागांकरिता प्रमाणपत्र हरवले आहेत आणि खालील . स्वाक्षरीकर्त्यांनी सदर शेअर्सकरिता दुव्यम प्रमाणपत्र वितरणार कंपनीकडे अर्ज केला आहे.

जर कोणा व्यक्तीस सदर शेअर्सनानत काही दावा असल कृपया अमचे निबंधक, केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड, . सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्र.३१-३२, गचीबोअली फायनान्शियल डिस्टीक्ट, हैदराबाद, तेलंगणा-५०००३३ येथे आजच्या तारखेपासून **एका महिन्यात** कळवावे, अन्यथा सदर शेअर्सनानत दुव्यम भागप्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया कंपर्न

सुरू करेल. दिनांक: १६.०८.२०२५ ठिकाण: मुंबई

नमुना युआरसी-२

कायद्याचे प्रकरण २१ चे भाग १ अंतर्गत नोंदणीबाबत सूचना देण्याची जाहिरात (कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ३७४(बी) आणि कंपनी (नोंदणीस प्राधिकृत) अधिनियम, २०१४ चे नियम ४(१) नुसार)

- . येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ३६६ चे उपकलम (२) नुसार व्हीएल शुभ क्रिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड या नावासह शेअर्सद्वारा कंपनी मर्यादित म्हणून कंपनी कायदा २०१३ च्या प्रकरण २१ चे भार १ अंतर्गत शुभ क्रिएशन या भागिदारी संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी मुंबई येथील निबंधकांकडे १५ दिवसानंतर परंतु ३० दिवसांच्या समाप्तीपुर्व अर्ज करण्याचे नियोजित आहे.
- . कंपनीचे प्रमुख उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे: दागिन्यांची दहानी व फेरबदल, दागिने व दिमेरे ज्वेलरीची रिटेल विक्री, विविध धातू दागिन्यांची संपूर्ण विक्री करणे.
- नियोजित कंपनीचे मेमोरेण्डम आणि आर्टिकल ऑफ असोसिएशनचे प्रती कंपनीचे कार्यालय ७७/७९, सुतारिया भवन, १ला मजला कार्यालय क्र.४, धानजी स्ट्रीट, झवेरी बाजार, मुंबई-४००००३ येथे निरीक्षणासार्ठ उपलब्ध आहेत
- . येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कोणाही व्यक्तीचा सदर अर्जास आक्षेप असल्यास त्यांनी त्यांचे आक्षेप लेखी स्वरुपात आरओसी सीआरसी, आयआयसीए, प्लॉट क्र.६, ७ ८, सेक्टर ५, आयएमटी मनेसार, गुरगा (हरियाणा)-१२२०५० येथील निबंधकांक सदर सचना प्रकाशन तारखेपासन २१ दिवसांत पाठवावेत. तसेच एक प्रत कंपनीचे नोंदणीक कार्यालयात पाठवावी.

दिनांक २५ ऑगस्ट. २०२५ शुभ क्रिएशनकरिता

- १) श्री. ललीत सोहनराज जैन (भागिदार) २) श्री. विक्रम नागराज जैन (भागिदार
- श्री. विराज जयंतीलाल परमार(भागिदार)

PUBLIC NOTICE I Mr. Tribhuvan Tiwari Advocate High Court

ereby issue this public notice on behalf of my clients, Mr. Dilip Kumar Bhulanprasad Chaurasia & Mr. Sombabu Bhulanprasad Chaurasia in respect of the immovable operty described as Nakada Apartmen Shop No. 1, Ground Floor, DP Road Bhayander (West), Thane 401101 (hereinafter referred to as "the said operty"), admeasuring approximately 115 sq. ft. The said property was originally held by Mr. Bhulanprasad Sahadev Chaurasia and Mr. Sital prasad Sahadev Chaurasia.

Mr. Bhulanprasad Sahadey Chaurasi passed away on 24.11.2022, leaving behind his following legal heirs:

• Mr. Dilip Kumar Bhulanprasad Chaurasia

- Mr. Sombabu Bhulanprasad Chaurasia Mrs. Sumitradevi Bhulanprasad Chaurasia
- Mrs. Ramkumari Mohanlal Chaurasiya Mr. Sitalprasad Sahadev Chaurasia passe
- way on 17.05.2021, leaving behind hi ollowing legal heirs:

 Mrs. Umapali Sitalprasad Chaurasiya
- Mrs. Shivkumari R. Chaurasiya
- Mr. Nirmaldas Sitalprasad Chaurasiya Mr. Narayandas Sitalprasad Chaurasiya
- Miss Manisha Sitalprasad Chaurasiya •Mrs. Archana Kumari Ramnares Chaurasiya

Upon their demise the said proper levolved upon their respective legal heirs, who intend to update their names in the ociety records

The general public is hereby informed that

any person(s) having any claim, right, title, interest, or objection in respect of the said vriting, along with all relevant supporting within 15 days from the date of publication of this notice. Failing which, it shall be presumed that there are no such claims or objections and the right, title, and interest of Mr. Bhulanprasad Sahadev Chaurasia and Mr. Sitalprasad Sahadev Chaurasia in the said property shall be considered clear and narketable, and no claims will be entertained

Mr. Tribhuvan Tiwari Advocate High Court)

B5-101. Inderprastha Complex, Navgha illage, Bhayander (East), Thane 401105 Email: tandtadvocate@gmail.com Date: 25.08.2025 Place: Bhayander

नमुना क्र.आयएनसी-२६ (कंपनी (स्थापना) अधिनियम, २०१४ चे

नियमं ३० नुसार) कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय एका राज्यातून वृत्तपत्रात प्रकाशित करावयाची जाहिरात केंद्र शासन, क्षेत्रिय संचालक, पश्चिम क्षेत्र,

मुंबई यांच्या समक्ष

. कपनी कायदा २०१३ चे कलम १३ चे उपकला ४) आणि कंपनी (स्थापना) अधिनियम २०१४ वे नियम ३० चे नियम (५) चे खंड (अ) प्रकरणात आणि

प्रिमियर इन्फोअसीस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (सीआयएन:युं॰२२००एमएच२००७मीटीसी१७५५९३) यांचे नोंदणीकृत कार्यालय: आर-७२४, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, एमआयडीसी रबाळे, नवी मुंबई, घणसोळी, ठाणे, रबाळे, महाराष्ट्र-४००७०१. ...अर्जदार कंपनी/याचिकाकर्ता

सर्वसामान्य जनतेस येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ३० जून, २०२५ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण संभेत मंजूर विशेष ठरावानसार कंपनीचे गेंदणीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्यातून राजस्थान राज्यात स्थलांतरीत करण्याकरिता कंपनीचे नेमोरॅण्डम ऑफ असोसिएशन बदलण्याच्या नेश्चितीसाठी कंपनीद्वारे केंद्र शासन यांच्याकडे . कपनी कायदा २०१३ च्या कलम् १३ अंतर्गत अर्जदार कंपनीने अर्ज करण्याचे योजिले आहे. कोणा व्यक्तिच्या हितास कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयाच्या नियोजित बदलामुळे काही बाधा येत् असल्यास त्यांनी त्यांच्या हिताचे स्वरूप व विरोधाचे कारण नमूद् केल्लेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांचे आक्षोप रजि. पोस्टाने किंवा गुंतवणूकदार तक्रार मुना भरून एमसीए-२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) वर सदर सूचना काशन तारखेपासून १४ दिवसांच्या आत क्षेत्रिय वंचालक, पश्चिम क्षेत्र, पत्ताः एव्हरेस्ट, ५वा मजला, १०० मरीन ड्राईव्ह, मुंबई-४००००२ या कार्यालयात पाठवाबी तसेच एक प्रत अर्जदार . कंपनीला खाली नमुद त्यांच्या नोंदणीकृत कार्याल

आर-७२४, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया एमआयडीसी, रबाळे, नवी मुंबई, घणसोळी जणे, स्बाळे, महाराष्ट्र-४००७०<u>१</u>

च्या वतीने व करिता प्रिमियर इन्फोअसीस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड

हेमंत कुमार बोथरा देनांक: २५.०८.२०२५ (संचालक डीआयएन:१०९४७६९९ ठिकाणः ठाणे

PUBLIC NOTICE

fr. Mahendra Chimanlal shah, varsha tradip Shah, Ila Virendra shah, joint nembers of the Krupalu Niwas Co Operative Housing Society Limited, having address at soda Wala lane Borivali west, Mumbai 400092, and holding Flat No.101, in the building of the society, Mahendra Chimanlal Shah died on 20/12/2022, Malti Mahendra Shah(W/O Mahendra Shah) has made an application for transfer of the shares of the eased members to her name

The Society hereby invites claims o objections from the heir/s or othe claimants/objectors to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society within a period of 15 days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of such claims/objections. If no claims/objections are received within the period prescribed above, the Society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased Membe in the capital/property of the Society in such manner as is provided under the Bye-laws of the Society. The claims/objections, if any, received by the Society for transfer of share and interest of the deceased Member in the capital/property of the Society shall be deal with in the manner provided under the Byelaws of the Society.

Date : 25.08.2025 A/1204 Shree Abhishek HSG, Nr. Atul Tower, Mathuradas Extn Road, Kandivali (W) Mumbai – 67

(अंदाजे ९९ नगांचा विद्युत मोटर्सचा नुकसानग्रस्त साठा हस्तांतरण) इच्छुक खरेदीदारांकडून "जसे आ

तसेच आहे तसेच आहे या तत्त्वावरे", 'एकत्रित आधारावर' विल्हेवाट लावण्याकरिता ई-लिलाव नमन गागविण्यात येत आहेत. मे. भारत बिजर्ल लिमिटेडच्या मालकीच्या अंदाजे ९९ नगांच्या विद्यत मोटर्सचा ट्रान्झिट डॅमेज्ड स्टॉक, वरील साहित्यार्च तपासणी भारत बिजली लिमिटेड, प्लॉट क्र.२ एमआयडीसी, ठाणे–बेलापर रोड, ऐरोली, नवी-. पुंबई-४००७०८, लॅंडमार्क: ऐरोली रेल्वे स्टेशनसमोर २५.०८.२५ ते ०४.०९.२५, स.१० ते साय.५ वा. पर्यंत श्री. पराग वारंग-९८२००२३९४४ गंच्याकडून पूर्व अपॉइंटमेंट घेतल्यानंतरच करता येईल इच्छक खरेबीदाराने कारखाना परिसराच्या सुरक्ष गेटवर आधार कार्ड, पॅन कार्ड इत्यादी ओळखपः मारर करावे ०४ ०९ २६ रोजी कामकाजाचे तार सायं.५वा. संपल्यानंतर तपासणी खिडकी बंद केल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीला कारखान्याच्या परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही. ई-लिलाव ०५.०९.२०२५ रोजी होईल. ई-लिलाव प्रपत्राकरिता संपर्क कुमारी खुशी, मोबा.

3550240325. सॅल्वोर सेटलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड

(लिलावकर्ते) पत्ताः २०३, २रो मजला, उर्षा किरण इमारत, आझादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-११००३३ किंवा www.salvorsettlers.com वेबसाईटवरून डाऊनलोड करावे

ई-लिलाव प्रपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख ०५.०९.२०२५ रोजी दु.१२.३०वा. पुर्वी

एन आर अगरवाल इंडस्ट्रिज लिमिटेड

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक एल२२२५०एमएच५९९३पीएलसी५३३३६५ नोंदणीकत कार्यालय: ५०२-ए/५०५-वी, फॉरच्यून टेरेस, ५वा मजला, सिटी मॉलच्या समोर न्यु लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई-४०००५३ | दुर.:६७३५७५०० | फॅक्स:२६७३०२२७ | २६७३६९५३ | ई-मेल:admin@nrail.com | वेबसाईट:www.nrail.com

भौतिक शेअर्सच्या हस्तांतरण विनंत्या पुन्हा दाखल करण्यासाठी विशेष विंडोसाठी भागधारकांना सूचना

तुम्हाला कळविण्यात येत आहे की, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ्र इंडिया (सेवी) ने २ जुलै, २०२५ रोजीच्या परिपत्रक क्र.सेवी/एचओ/एमआयआरएसडी/एमआयआरएसडी–पीओडी/पी/सीआयआर/२०२५/ ९७ द्वारे, १ एप्रिल २०१९ रोजीच्या अंतिम मुदतीपूर्वी दाखल केलेल्या आणि दस्तावेजांमध्ये/प्रक्रियेत कमतरता/अपूर्णतेमुळे किंवा अन्यथा नाकारलेल्या किंवा परत केलेल्या परंतु उपस्थित न राहिलेल्या हस्तारका करारांच्या पुनर्लेखनासाठी ७ जुलै, २०२५ ते ६ जानेवारी, २०२६ या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी एक विशेष विंडो उपडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत, संबंधित कंपनीकडे हस्तांतरणासाठी सिक्युरिटीज पुन्हा लॉज केल्या जातील आणि हस्तांतरण-सह-डीमटेरियलायझेशनसाठी पुन्हा लॉज केले

संबंधित गुंतवणूकदारांना विनंती आहे की त्यांनी वरील वेळेत आमच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफ एजंद्रस, एमयुएफजी इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वीची लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ज्ञात) यांच्याकडे भौतिक रोअर्सच्या हस्तांतरणाची विनती पुन्हा दाखल करावी. संबंधित गुंतवणूकदारांना या एक-वेळच्या मुदतीचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते

एन आर अगरवाल इंडस्ट्रिज लिमिटेडच्या वतीने

कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी आयसीएसआय सदस्यत्क्र.ए३८०२४

पजा वफ्तरी

ठिकाण : मुंबई

विनांक: २५.०८.२०२५

जाहीर सूचना

तमाम जनतेस याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, आम्ही श्री. किशोर नेगांधी पॅन- AFVPN4598L व श्री. मंथन नेगांधी पॅन- AROPN2603B यांनी खेतसी तुलसीदास वदामोदर खेतसी चॅरिटेबल ट्रस्ट (यापढे जमीन मालक टस्ट म्हणन उल्लेखित) यांच्याशी मालमत्ता विवरण - खोली क्र. २७. ४ था मजला ३३/३५, दामोदर भुवन, १ ली पारसीवाडा लेन, व्ही. पी. रोड, मुंबई - ४०० ००४ या मालमत्तेकाति पूर्वीचा मुंबई वहिवाट कायदा,१९५८ व /वा महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ अंतर्गत हक्कांशी संबंधित वहिबाट व ताब्याच्या अनुषंगाने जारी भाडेपावतीतील कायदेशीर नाव हस्तांतरित करणे/अद्ययावत करण्यासाठी संपर्क साधला आहे. सदर मालमत्ता ही आमच्या कुटुंबाद्वारे ६० (साठ) वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर स्वरूपात ताब्यात आहे व आम्ही जमीन मालक ट्रस्टना सदर कालावधीदरम्यान नियमितपणे सर्व भाडे प्रदान करीत आहोत. सदर भाडेपावती ही श्री. चुनीलाल जाधव (दिवंगत श्री. रमणिकलाल नेगांर्ध यांचे भाऊ जे वर नमूद केल्यानुसार श्री. किशोर नेगांधी यांचे वडील व श्री. मंथन नेगांधी यांचे आजोब आहेत.) यांच्या नावे जारी केली असल्याने आम्ही जमीनमालक ट्रस्टाच्या नोंदीमध्ये ती बाब अद्ययावत करू इच्छित आहोत व त्यांना श्री. किशोर नेगांधी व श्री. मंथन नेगांधी यांच्या संयक्त नावे अद्ययाव भाडेपावती जारी करण्याची विनंती केली आहे.

कोणाही व्यक्तीची (नैसर्गिक वा कृत्रिम स्वरूपात कायदेशीर व्यक्ती) सदर मालमत्तेवर श्री. चुनीलाल जाधव यांच्या माध्यमातन उत्तराधिकार, भेट. गहाण वा धारणाधिकार स्वरूपात कोणताही कायदेशीर) हक्क असल्याच्या अनुषंगाने सदर हस्तांतरणास हरकत असल्यास त्यांनी त्यांची हरकत /दावे सर्व आवश्यक कागदोपत्री पुरावल्यासहित सदर सूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून **२१ दिवसांच्या आत** खालील दोन्ही पत्त्यांवर सादर करावी : १. मे. सुधा भाटिया पदमा सोसायटी, पहिला मजला, फ्लॅट नं. १०२, एस.व्ही. रोड, टोयाटो गोरूमजवळ, तळमजला, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई- ४०००५६ आणि २. श्री. मंथन नेगांधी ऑफिस नं ५, अमन चेंबर्स, तळमजला, चर्नी रोड, मुंबई- ४००००४. अन्यथा सदर दावे हे अधित्यागित समजण्यात येतील व जमीन मालक ट्रस्ट यांना श्री. किशोर नेगांधी व श्री. मंथन नेगांधी यांच्या संयुक्त नावे संबंधित भाडे पावतीमध्ये कायदेशीर हस्तांतरण/बहिवाट अद्ययावत करण्याचा अधिकार राहील

श्री. किशोर नेगांधी आणि श्री. मंथन नेगांधी दिनांक : २५.०८.२०२५

विशेष वसुली अधिकारी

महाराष्ट सहकारी संस्था कायदा अधिनियम १९६**०** चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १**०**७ अन्वये व्दारा ः गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंवई, दुकान नं . ०३, के एस नगर, गावदेवी रोड, गावदेवी माता चौक, भांडुप (प) मुंबई ४०० ०७८

(नियम १**०**७ पोट नियम [११ (ड-१)] पहा स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्याबाबतची नोटीर

ज्या अर्थी खाली सही करणार हे **गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई** यांच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ अन्वये वसुली अधिकारी असून त्यांनी दि . ०८/०५/२०२४ रोजी मागणी नोटीस ऋणको **श्री . पराग रमाकांत घरत** यांना देऊन नोटीशीमध्ये नमद केलेली रक्कम 😹 . २,९७,७६९/- (अ**क्षरी रू.दोन लाख सत्याणव हजार सातशे एकोणसत्तर फक्त)** सदर नोटीस मिळाल्याच्या दिनांका पासुन ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसूर केली आहे - खाली सही करणाऱ्या अधिकाऱ्याने **दिनांक २५.०६.२०२४** रोजी जप्तीची नोटीस दिली असून पुढे निर्दिष्ठ केलेली

ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसूर केल्यामुळे, ऋणकोला या प्रमाणे नोटीस देण्यात येत आहे . आणि सर्व नागरिकांना खाली निर्दिष्ठ केलेल्या मालमत्तेचा खाली सही करणाऱ्या अधिकाऱ्यानी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०७ [११ (ड - १)] अन्वये दिलेल्य अधिकारानुसार **दि . २५ जून या दिवशी २०२५ .** या वर्षी तावा घेतलेला आहे .

विशेषकरून ऋणकोला आणि सर्व नागरिकांना याद्वारे सावध करण्यात येत आहे की, मालमत्तेसंवंधी कोणताही व्यवहार करू नयेत आणि व्यवहार केल्यास त्यास गावदेवी करमला सहकारी पतपेढी **मर्यादित मुंबई** यांच्या वोजाची रक्कम **रू. ३,४०,०६१/- (अक्षरी रू.तीन लाख चाळीस हजार एक्कसष्ट फक्त)** आणि त्यावरील व्याज याला अधिन रहावे लागेल **.**

रूम नं १२, कोकण कुंज सोसायदी, शिवाजी नगर, नवजीवन शाळे समोर, भांडुप(प) मुंबई - ४०००७८

दिनांक ३- २५ .०६ .२०२५ (शिक्का) ठिकाण ः- मुंवई

अशोक भागांजी कुन्हाडे विशेष वसुली अधिकारी संल्गन गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित,मुंबई

विशेष वसुली अधिकारी

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ अन्वये व्दारा : गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, दुकान नं : 0३, के एस नगर, गावदेवी रोड, गावदेवी माता चौक, भांडुप (प) मुंबई ४०० ०७८ .

(नियम १ \mathbf{o} ७ पोट नियम [११ (ड-१)] पहा)

स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्याबाबतची नोटीस

ज्या अर्थी खाली सही करणार हे **गावदेवी करमला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई** यांच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ अन्वये वसुली अधिकारी असून त्यांनी दि.०८/०५/२०२४ रोजी मागणी नोटीस ऋणको **श्री - दिपक अनंत परब** यांना देऊन नोटीशीमध्ये नमुद केलेली रक्कम **रू -**२,६५,११०/- (अ**क्षरी रू - दोन लाख पासष्ट हजार एकज्ञे दहा फक्त**) सदर नोटीस मिळाल्याच्या दिनांका पासुन ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसूर केली आहे . खाली सही करणाऱ्या अधिकाऱ्याने **दिनांक २५.०६.२०२४** रोजी जप्तीची नोटीस दिली असून पुढे निर्दिष्ठ केलेली मालमत्ता जप्त

ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसूर केल्यामुळे,ऋणकोला या प्रमाणे नोटीस देण्यात येत आहे . आणि सर्व नागरिकांना खाली निर्दिष्ठ केलेल्या मालमत्तेचा खाली सही करणाऱ्या अधिकाऱ्यानी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १**०**७ [११ (ड - १)] अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार **दि . २५ जून या दिवशी २०२५ .** या वर्षी तावा घेतलेला आहे .

विशेषकरून ऋणकोला आणि सर्व नागरिकांना याद्वारे सावध करण्यात येत आहे की, मालमत्तेसंबंधी कोणताही व्यवहार करू नयेत आणि व्यवहार केल्यास त्यास **गावदेवी करमला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई** यांच्या वोजाची रक्कम **रू.२,९८,४०७/- (अक्षरी रू.दोन लाख अठयाणव हजार चारज्ञे सात फक्त**)आणि त्यावरील व्याज याला अधिन रहावे लागेल .

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

रूम नं १५ \mathbf{o} १, मानव एस \cdot आर \cdot ए \cdot सोसायटी, जे \cdot एम \cdot रोड, भांडुप (प) मुंवई-४ \mathbf{oo} \mathbf{o} ७८ इलेक्ट्रिसिटीृ RESIDENTIL विल मिटर नं . ०८२०३५१६५६९

दिनांक ३- २५ .०६ .२०२५ (शिक्का ठिकाण ः- मुंवई

अशोक भागाजी कुन्हाडे विशेष वसुली अधिकारी संल्गन गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी गर्यादित, गुंवई



CIN No.: U65993MH2005PLC158168 🗀 🕮 : compliance@fasttrackhfc.com 🕮 🕮 : www.itihousing.com

THE THE

2- مريوس مه شرب مرزيوده مه مستقده مه موسوس قصوص موسوس ومصوص جهدوس و مسوس و به مسمومية في خواصة جوامه مهرم مهم معرفه معرفه معرفه مستقيمة والمستقلة والمستقلة والمستقلة والمستقلة والمستقلة والمستقلة التلايان التستير التشت التصني الاتصاف المتعاملة فهوات المتعامل ال

		□□□1□□1□□1□□1□□1□□1□1□1□1□1□1□1□1□1□1□			
			□□□ ₹□□ (EMD)		
२) Шर Шरि⊓याШ (☐-☐-T)		([[]]) २२/[[]) २०२३ [[]]), त्वारी[[] त्वारी[[]][][]			

صهر مناسب التقالين المراب المرابع مناسب مناسب مناسب مناسبة عليه المرابع والمرابع المرابع والمرابع وال

كلي: كالك

ाािेेे : २३.०८.२०२५

विशेष वसुली अधिकारी

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ अन्वये द्धारा ^३ गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, दुकान नं · **0**३, के एस नगर, गावदेवी रोड, गावदेवी माता चौक, भांडुप (प) मुंबई ४०० ०७८

नमुना झेड (नियम १०७ पोट नियम [११ (ड-१)] पहा)

स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्याबाबतची नोटीस

ज्या अर्थी खाली सही करणार हे **गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई** यांच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ अन्वये वसुली अधिकारी असून त्यांनी दि.०८/०५/२०२४ रोजी मागणी नोटीस ऋणको श्री .रमेश काशीराम पालांडे यांना देऊन नोटीशीमध्ये नमुद केलेली रक्कम रू. २.९७.७६९ /- (अक्षरी रू. दोन लाख सत्याणव हजार सातज्ञे एकोणसत्तर फक्त) सदर नोटीस मिळाल्याच्या दिनांका पासून ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसूर केली आहे - खाली सही करणाऱ्या अधिकाऱ्याने **दिनांक २५.०६.२०२४** रोजी जप्तीची नोटीस दिली असून पुढे निर्दिष्ठ केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे .

ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसूर केल्यामुळे, ऋणकोला या प्रमाणे नोटीस देण्यात येत आहे आणि सर्व नागरिकांना खाली निर्दिष्ठ केलेल्या मालमत्तेचा खाली सही करणाऱ्या अधिकाऱ्यानी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०७ [११ (ड - १)] अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार **दि . २५ जून या दिवजी २०२५ .** या वर्षी तावा घेतलेला आहे .

विञ्चेषकरून ऋणकोला आणि सर्व नागरिकांना याद्वारे सावध करण्यात येत आहे की. मालमत्तेसंवंधी कोणताही व्यवहार करू नयेत आणि व्यवहार केल्यास त्यास **गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई** यांच्या वोजाची रक्कम **रू. ३,४०,०६१/- (अक्षरी रू.तीन लाख चाळीस हजार** एक्कसष्ट फक्त) आणि त्यावरील व्याज याला अधिन रहावे लागेल

राम प्यारे चाळ, टेंभी पाडा, भांडूप आर .डी जी .डी रोड, भांडुप (प) मुंबई - ४०० ०७८ सही /-

दिनांक :- २५ .0६ .२०२५ ठिकाण ३- मुंबई

अञोक भागांजी कऱ्हाडे विशेष वसली अधिकारी संल्गन गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित,मुंबई



क्रीस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड

(पूर्वी क्रीस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ज्ञात) चा पत्ता : क्रीस्टल हाऊस १५ए १७, शिवाजी फोर्ट सी एच एस डंकनज् कॉजवे रोड, मुंबई ४०० ०२२, महाराष्ट्र, भारत. दुरध्वनी क्रमांक : ०२२-४७४७ १२३४

वेबसाइट : <u>www.krystal-group.com</u> इ मेल : <u>company.secretary@krystal-group.com</u> सीआयएन : L74920MH2000PLC129827

२४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना तसेच दूरस्थ ई-मतदान, नोंद दिनांक व लाभांशाची माहिर्त

यादारे सचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ च्या सर्व लागू तरतुदी व त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ सहवाचन कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) तसेच भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सेबी) यांच्याद्वारे यासंदर्भात जारी सर्व लाग परिपत्रके यांच्या अनुपालनांतर्गत एजीएमची सचना दि. ३१,०७,२०२५ मध्ये विवरणीत विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी कंपनीची २४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार दि. १६.०९.२०२५ रोजी दु. २.०० वा. (भा. प्र. वे.) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडिओ ऋज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे

ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरीज्/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/रजिस्ट्रार व शेअ ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे नोंदवलेले असतील अशा संभासदांना कंपनीने वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिताचा स्पष्टिकरण अहवाल व वार्षिक अहवालासमवेत एजीएमची सूचना शनिवार, दि. २३.०८.२०२५ रोजी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवलेली आहे. एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट <u>https://krystal-group.com/financials-annual-report</u> वर तसेच स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यांची वेबसाइट अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com वर तसेच नॅशनल सीक्यरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची वेबसाइट <u>https://evoting.nsdl.com</u> वरही उपलब्ध आहे. ज्या भागधारकांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत नाहीत अशा भागधारकांना वित्तीय वर्ष २०२४-२५ करिताच्या वार्षिक अहवालाची वेबलिंक असलेला कागदोपत्री पत्रव्यवहार पाठवण्यात आला आहे.

दि. ३१.०३.२०२५ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता प्रत्येकी रु. १०/- दर्शनी मूल्याच्या प्रति शेअरकरिता प्रस्तावित रु. १.५० प्रतिशेअर अंतिम लाभांश प्राप्त करण्यासाठी सभासदांच्या पात्रतेकरिता नोंद दिनांक म्हणून कंपनीने मंगळवार, दि. ०२.०९.२०२५ हा दिवस निश्चित केला आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ नुसार तसेच कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ मधील नियम २० आणि सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) नियम, २०१५ मधील नियम ४४ यानुसार कंपनीने आपल्या सभासदांना एनएसडील मार्फत इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

ई-मतदानासंदर्भातील तपशील खालीलप्रमाणे आहे

l	इ-मतदानासदमाताल तम्साल जालालक्रमान आह.	
l		शनिवार, दि. १३.०९.२०२५ रोजी
l		स. ९.०० पासून (भा. प्र. वे.)
l		सोमवार, दि. १५.०९.२०२५ रोजी
l		सायं. ५.०० पर्यंत (भा. प्र. वे.)
		मंगळवार, दि. ०९.०९.२०२५
l	निर्धारित अंतिम तारीख	

भासदांनी नोंद घ्यावी की, वरील निर्देशित निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मंगळवार, दि. ०९.०९.२०२ रोजीनसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर किंवा एनएसडीएल व सेंटल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्याद्वारे सादर करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये नोंद असेल असे सभासद केवळ सूचनेत विहित विषयांवर मत देण्यास पात्र असतील. सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर पुढे त्याला ते बदलण्याची परवानगी नसेल. सोमवार, दि. १५.०९.२०२५ रोजी साय. ५.०० पश्चात एनएसडीएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदान अकार्यरत करण्यात येईल.

दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले सभासदही एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही. दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेले एजीएमध्ये उपस्थित असलेले संभासद एजीएम दरम्यान एनएसडीएलद्वारे उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधेच्या माध्यमातून मत देऊ शकतील.

निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असलेल्या व्यक्तेतंनी सदर सूचना केवळ माहितीसाठी समजावी ज्या सभासदांनी आपले ई–मेल पत्ते नोंदणीकत केलेले नसतील किंवा वार्षिक अहवालाच्या पाठवणीपश्चा

ज्या सभासदांनी शेअर्स संपादित केलेले असतील व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मंगळवार, दि. ०९.०९.२०२५ रोजीनुसार भागधारक असतील असे सभासद एजीएमच्या सूचनेत विहित निर्देशांनुसार युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतील/तयार करू शकतील. ई–मतदानासाठी यापूर्वीच नोंदणीकृत असलेली व्यक्ती मत देण्यासाठी त्याचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकेल. वार्षिक अहवाल प्राप्त करण्यासाठी तसेच लाभांश प्राप्तीसाठी बँक खाते तपशील अद्ययावत करण्यासाठीची

प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेतील तपशिलात दिलेली आहे. काही शंका असल्यास सभासदांनी <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) वाचावे किंवा एनएसडीएल यांना ०२२-४८८६७००० वर संपर्क साधावा किंवा श्री. अभिजीत गुंजाळ, सहाय्यक व्यवस्थापक यांना <u>evoting@nsdl.com</u> येथे

ई-मेल पाठवावा किंवा त्यांचे एनएसडीएल यांना त्यांचा पत्ता : ४ था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला

मिल्स् कम्पाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३ येथे पाठवावेत.

थांबवून ठेवण्यात येणार आहे.

दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२५

स्थळ : मुंबई

लाभांशाचे प्रदान सेबी यांनी मास्टर परिपत्रक क्रमांक सेबी/एचओ/एमआयआरएसडी/पीओडी-१/पी/सीआयआर/२०२४/३ दिनांक ७ मे २०२४ च्या अनुसार १ एप्रिल २०२४ पासुन, ज्या सभासदांकडे कागदोपत्री स्वरूपात प्रतिभृती आहेत अशा सभासदांना जाहीर झालेला लाभांश केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अदा करणे सक्तीचे केले आहे. ही अदायगी समभाग धारकांनी त्यांचा पॅन कार्ड तपशील, संपर्क तपशील, (टपाली पत्ता, पिन कोड आणि मोबाईल क्रमांकासहित), बँक खाते तपशील, नमुना स्वाक्षरी (''केवायसी') तपशील सादर केल्यानंतरच करता येणार आहे. वरील प्रमाणे नमूद करण्यात आलेल्या सेबी परिपत्रकाच्या अनुसार ज्या समासदांकडे कागदोपत्री स्वरूपात समभाग आहेत त्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, भविष्यातील लाभांश जो त्यांच्या समभागधारणेच्या संदर्भात आहे तो, त्यांनी आरटीए यांच्याकडे केवायसी तपशील अद्यावत न केल्यास

लाभांश प्राप्त करण्यात विलंब टाळण्यासाठी संभासदांनी कृपया डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातील भागधारणासंदर्भात डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे आणि कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारणासंदर्भात कंपनीचे रजिस्ट्रार व शोअर ट्रान्सफर एजंट एमयुएफजी इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वी लिंकइन टाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ज्ञात) यांच्याकडे अद्ययावत करून घ्यावा

> क्रीस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड करित (पूर्वी क्रीस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून ज्ञात)

> > स्तुती मा कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी सभासदत्व क्र. : ए४५२५७

विशेष वसूली अधिकारी

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे कलम १०७ अन्वये द्यारा ः गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई, दुकान नं . ०३, के एस नगर, गावदेवी रोड, गावदेवी माता चौक, भांडुप (प) मुंबई ४०० ०७८ .

> नमना झेड (नियम १**०**७ पोट नियम [११ (ड-१)] पहा)

तोचा ताबा घेण्याबाबतची नोटीस

ज्या अर्थी खाली सही करणार हे **गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित मुंबई** यांच्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ अन्वये वसुली अधिकारी असून त्यांनी **दि •०८/०५/२०२४** रोजी मागणी नोटीस ऋणको श्री • राजेश पांडुरंग सुतार यांना देऊन नोटीशीमध्ये नमुद केलेली रक्कम 🛚 🔻 २,६५,११०/- (अक्षरी रू.दोन लाख पासच्ट हजार एकशे दहा फक्त) सदर नोटीस मिळाल्याच्या दिनांका पासुन ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसूर केली आहे . खाली सही करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिनांक २५.0६.२०२४ रोजी जप्तीची नोटीस दिली असून पुढे निर्दिष्ठ केलेली मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे .

ऋणकोने रक्कम जमा करण्यास कसर केल्यामळे. ऋणकोला या प्रमाणे नोटीस देण्यात येत आहे आणि सर्व नागरिकांना खाली निर्दिष्ठ केलेल्या मालमत्तेचा खाली सही करणाऱ्या अधिकाऱ्यानी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १०७ [११ (ड - १)] अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार दि . २५ जून या दिवशी २०२५ . या वर्षी तावा घेतलेला आहे .

विठोपकरून ऋणकोला आणि सर्व नागरिकांना यादारे सावध करण्यात येत आहे की मालमलेसंबंधी कोणताही व्यवहार करू नयेत आणि व्यवहार केल्यास त्यास **गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्या** दित मुंबई यांच्या वोजाची रक्कम **ल. २,९८,४०७/- (अक्षरी ल.दोन लाख अठयाणव हजार चारशे सात फक्त)** आणि त्यावरील व्याज याला अधिन रहावे लागेल .

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन

रूम नं . ०४, नवनाथ सहकार सोसायटी, मुटू कॅम्प, उत्कर्ष नगर,पी . एन . रोड, भांडुप (प) मुंवई

≥00 00¥ दिनांक ३- २५ .०६ .२०२५ (शिक्का ठिकाण ३- मुंवई

सही /-अञोक भागाजी कऱ्हाडे विञेष वसली अधिकारी

म्संल्गन गावदेवी करभला सहकारी पतपेढी मर्यादित, नुंबई POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12)

OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED

Corporate Identification Number: L55209MP2018PLC076125

Registered Office: H-1 Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore, Indore- 452010, Madhya Pradesh, India

Tel. No. +91-731-4006666; Email: cs@shilindore.com Website: www.shilindore.com OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 7.92.118 (SEVEN LAKHS NINETY TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND EIGHTEEN ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.00% OF TOTAL VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY, BY CENTURY 21 OFFICESPACE PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER") TOGETHER WITH PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIREF NAMELY, CENTURY 21 TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED ("PAC-1"), M.P.ENTERTAINMENT & DEVELOPERS PRIVATE

(THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") (HEREINAFTER ALTOGETHER REFERRED TO AS THE "OPEN OFFER" OR "OFFER"). This advertisement ("Post Offer PA") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("Manager to the Offer") on behalf o Acquirer along with PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. This Post-Offer Advertisement should be read n continuation of, and in conjunction with the:

LIMITED ("PAC-2"), PRINT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED ("PAC-3") (HEREINAFTER PAC-1, PAC-2, PAC-3 COLLECTIVELY

REFERRED TO AS "PACS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND

EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED

Public announcement dated February March 28, 2025 ("Public Announcement" or "PA");

7. Date of Payment of Consideration

b) Detailed public statement dated April 07, 2025 published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) and Madrasmani (Chennai Edition) ("Detailed Public Statement" or "DPS");) Draft letter of offer dated April 16, 2025 ("DLOF"); d) Letter of offer dated July 15, 2025 ("Letter of Offer" or "LOF");

e) Corrigendum to DPS dated July 11, 2025 published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (al editions), Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) and Madrasmani (Chennai Edition) ("Corrigendum to DPS"); and) Pre-offer advertisement dated July 24, 2025, published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (al editions), Mumbai Lakshdeep (Mumbai edition), Madrasmani (Chennai Edition) and Indore Samachar* (Indore Edition) ("Pre-Offer PA"). *Pursuant to change in the registered office address of the Target Company from Chennai to Indore w.e.f. April 15, 2025 we have

additionally released Pre-Offer PA, IDC Recommendations and this Post Offer PA in Indore Samachai Capitalized terms used but not defined in this Post-Offer PA shall have the same meaning assigned to such terms in the Lette of Offer, the Pre-Offer PA and Corrigendum to DPS.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer 1. Name of the Target Company: Savaji Hotels (Indore) Limited Name of the Acquirer and PACs: Century 21 Officespace Private Limited Century 21 Town Planners Private Limited M.P.Entertainment & Developers Private Limited Print Solutions Private Limited 3. Name of the Manager to the Offer: Systematix Corporate Services Limited Name of the Registrar to the Offer: MUFG Intime India Private Limited (Formerly Known as Link Intime India Private Limited) 5. Offer Details: a. Date of Opening of the Offer riday, July 25, 2025 b. Date of Closure of the Offer Thursday, August 07, 2025 Date of Acceptance/Rejection: Wednesday, August 20, 2025

Thursday, August 21, 2025

	etails of Acquisition:				
SI. No.	Particulars		ed in the ocument	Act	uals
8.1	Offer Price (per Equity Share)				
	Fully Paid-up Shares		1250		1250
	Partly Paid-up Shares	Not ap	plicable	Not ap	plicable
8.2	Aggregate number of shares tendered	7,92	2,118	3,78	,251
8.3	Aggregate number of shares accepted	7,92	2,118	3,78	,251
	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share).	Rs. 99,0	1,47,500	Rs. 47,2	8,13,750
	Shareholding of the Acquirer and the PACs before Agreement / Public Announcement				
	Number	,	,930		,930
	% of total Share Capital & Voting Capital	24.1	16%	24.16%	
8.6	Shares acquired by the Acquirer by way of Agreements				
	Number	82,755		82,755	
	% of total Share Capital & Voting Capital	2.7	2%	2.7	2%
8.7	Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer and the PACs				
	Number	7,92,118			3,251
	% of total Share Capital & Voting Capital	26.0	00%	12.4	42%
	Shares acquired by the Acquirer and the PACs after Detailed Public Statement				
	Number of shares acquired	N N	IL	N N	IL
	Price of the shares acquired		plicable		plicable
	% of the shares acquired	N	IL	l N	IL
8.9	Post offer shareholding of the Acquirer and the PACs				
	Number	16,10	0,803	11,9	6,936
	% of total Share Capital & Voting Capital	52.	87%	39.	29%
8.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer *	Post-Offer*	Pre-Offer*	Post-Offer**
	Number	9.67.771	1,75,653	9.67.771	5.89.520
	% of total Share Capital & Voting Capital	31.77%	5.77%	31.77%	19.35%

Excluding the Acquirer, the PACs and the existing Promoter and Promoter Group of the Target Company Post Open Offer, it is found that the Target Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of the Company is not in the Company in the Company is not in the Company in the Company in the Company is not in the Company in the Companyof SEBI (LODR) Regulations read with Securities Contract (Regulations) Rules, 1957 as amended. The Acquirer and the PACs including existing Promoter and Promoter Group of the Target Company will jointly comply with the provisions of Regulation 7(4) of the

SEBI (SAST) Regulations to maintain the MPS in accordance with the SCRR and the applicable laws. Post Open Offer, the Acquirer along with the PACs will hold 11,96,936 Equity Shares aggregating to 39.29% of Voting Share Capital of

the Target Company The Acquirer and the PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer PA and also for

the obligations as laid down in the SEBI (SAST) Regulations This Post-Offer PA will also be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com) and Manager to

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND THE PACS Systematix Corporate Services Limited he Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606,



SYSTEMATIX GROUP

Investments Re-defined

Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Telephone: +91-22-6704 8000 Fax +91-22-6704 8022 Email: ecm@systematixgroup.ir Contact Person: Mr. Kuldeep Singh SEBI Registration Number: INM000004224 MUFG Intime India Private Limited

Plot No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Complex (BKC),



C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India. Tel. No.: +91-8108114949 Email: sayajihotels.offer@in.mpms.mufg.com Contact Person: Pradnya Karanjeka SEBI Registration Number: INR000004058

For and on behalf of the Acquirer and the PACs

Century 21 Officespace Century 21 Town Planners **Private Limited** Private Limited

M.P. Entertainment & **Developers Private Limited** PAC - 2

Print Solutions Private Limited PAC - 3

Date: August 23, 2025 Place: Indore

PAC - 1

continued from previous page.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

BEELI/M/E Capital Advisors Pvt. Ltd.

Beeline Capital Advisors Private Limited

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

Place: Ahmedabad

Date: August 23, 2025

B 1311-1314 Thirteenth Floor Shilp Corporate Park, Raipath Rangoli Road Thaltei, Ahmedabad 380054, Gujarat Telephone: +91 79 4918 5784; E-mail: mb@beelinemb.com; Investor grievance e-mail: ig@beelinemb.com Website: https://beelinemb.com/; Contact person: Nikhil Shah; SEBI Registration No.: INM000012917

MUFG MUFG Intime

MUFG Intime India Private Limited (formerly Link intime India Private Limited)

REGISTRAR TO THE ISSUE

C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbal 400 083, Maharashtra, Telephone: +91 8108114949 E-mail: amantahealthcare.ipo@linkintime.co.in; Investor grievance e-mail: amantahealthcare.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in; Contact person: Shanti Gopalkrishnan; SEBI registration number: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Nikhita Dinodia, Amanta Healthcare Limited

8th Floor, Shaligram Corporates, C.J. Marg, Ambli, Ahmedabad - 380058 Gujarat, India Telephone: 079 67777600; E-mail: cs@amanta.co.in; Website: www.amanta.co.in

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Manager or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 29 of the RHP before applying in the Issue. A copy of the RHP will be made available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and is available on the websites of the BRLM, Beeline Capital Advisors Private Limited at https://beelinemb.com/ and at the website of the Company, AMANTA HEALTHCARE LIMITED at www.amanta.co.in and the websites of the Stock Exchanges, for BSE at www.bseindia.com and for NSE Limited at www.nseindia.com. AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLM and the Registrar to the Issue at: www.amanta.co.in, https://beelinemb.com/ and www.linkintime.co.in, respectively.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of our Company, AMANTA HEALTHCARE LIMITED: Tel: 079 67777600; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91 79 4918 5784 and Syndicate Members: Spread X Securities Private Limited, Telephone: +91 79 6907 2018, Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Issue. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock

ESCROW COLLECTION BANK: Axis Bank Limited | REFUND BANK: Axis Bank Limited | PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK: Axis Bank Limited | SPONSOR BANK: Axis Bank Limited

forth in the Notice of AGM.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

On behalf of the Board of Directors

Nikhita Dinodia 65

For AMANTA HEALTHCARE LIMITED

Actuals

39.29%

Pre-Offer*

9,67,771

Post-Offer*

5.89.520

Company Secretary and Compliance Officer

AMANTA HEALTHCARE LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Issue of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated August 22, 2025 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Beeline Capital Advisors Private Limited at https://beelinemb.com/, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.nseindia.com and the website of the and for details relating to such risks, please see the section "Risk Factors" beginning on page 29 of the RHP filed by the Company with the RoC. This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction, including India. The Equity Shares offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not ## (India).

subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities have in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S").

ethos | WATCH BOUTIQUES

ETHOS LIMITED

Registered Office: Plot No. 3, Sector - III, Parwanoo, District Solan (Himachal Pradesh) 173220

Corporate Office: S.C.O. 88-89, Sector 8-C, Madhya Marg, Chandigarh 160 009

Head Office: Global Gateway Towers A, 1st Floor, MG Road, Sector-26, Gurugram, 122002

Tel.: +91 0124 6932100, Fax: +91 172 2548302, website: www.ethoswatches.com, email id: investor.communication@ethoswatches.com

NOTICE OF THE 18™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 18" Annual General Meeting ("AGM") of Ethos Limited ("the Company™) is scheduled to be held on

Monday, September 15, 2025 at 11:00 AM (IST), through Video-Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in

compliance with General Circular no. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and

Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024, issued by Securities and Exchange Board of India

("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") and all other applicable laws, to transact the business(es) that will be set

The Company has completed the dispatch of Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year

2024-25 on Saturday, August 23, 2025, through electronic mode only, to those Members whose email IDs are registered with the

Company/Registrar & Transfer Agent ("RTA") or Depository Participant(s) ("DPs") as on the cut-off date i.e. August 15, 2025. These

documents are also available on the Company's website www.ethoswatches.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited

and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the Kfin Technology

Additionally, a letter providing the weblink and QR code for accessing Notice of the AGM and the Annual Report was dispatched on

Saturday, August 23, 2025, to those shareholders who have not registered/updated their email address with the Company/RTA or DPs.

Members whose email addresses are not registered/updated, he/she may update/register the same with their DPs:

1 TATA TATA POWER

(Corporate Contracts Department) Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173188) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST The Tata Power Company Limited hereby invites Expression of Interest from eligible parties for

"RCC Retrofitting Works at Mundra Thermal Power Station, Mundra, Gujarat (Tender Ref. No.: CC26PMR025)"

For details of pre-qualification requirements, purchasing of tender document, bid security, etc., please visit Tender section of our website (URL: https://www.tatapower.com/tender/tenders-listing). Eligible parties willing to participate may submit their expression of interest along with the tender fee on or before 3" September, 2025.

XPRO INDIA LIMITED

CIN: L25209WB1997PLC085972 Registered Office: Barjora Mejia Road, P.O. - Ghutgoria

Tehsil - Barjora, Dist. - Bankura, West Bengal - 700 202 Tel.: +91-9775301701; E-mail: cosec@xproindia.com; Website: www.xproindia.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS REGARDING 100 DAYS CAMPAIGN - "SAKSHAM NIVESHAK"

The Shareholders of the Company are hereby informed as per the directions of Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPFA"), Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Government of India, letter dated July 16, 2025, Xpro India Limited (the 'Company' has initiated '100 Days Campaign-Saksham Niveshak' from July 28, 2025 to November 6, 2025, for the shareholders, whose dividends are unpaid / unclaimed.

The shareholders may note that this campaign has been initiated specifically to reach out to the shareholders of the Company to encourage and enable them to claim unpaid or unclaimed dividends and to update their KYC, bank mandates, nominee and contact information. The shareholders are therefore requested to update their details and claim unpaid / unclaimed dividend in order to prevent their shares or dividend from being

Since dividends on shares are payable only through electronic mode for shareholders with unpaid or unclaimed dividends, the amount will be credited to the shareholder's bank account only after the required information / documents are updated. Physical shareholders are requested to complete their KYC updates accordingly. Further shareholders holding shares in electronic form and have not claimed their dividend can claim the same by updating / modifying their details with their respective Depository

All the shareholders who have unpaid / unclaimed dividend or those who are required to update their KYC, bank mandates, nominee and contact information are requested to download forms from https://web.in.mpms.mufg.com/client-downloads.html or form Company's website at www.xproindia.com and submit signed form along with the KYC documents to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company

By Post: Physical copies, self-attested, dated and addressed to MUFG Intime India Private Limited at C 101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 By email: From your registered email ID, with digitally signed documents (first joint holder must sign in case of joint holdings) to: mt.helpdesk@in.mpms.mufg.com To support the success of this campaign, kindly submit your documents by November

For any assistance regarding the 100 days Campaign - "Saksham Niveshak" please do reach out to the Company at cosec@xproindia.com

For Xpro India Limited

Date : August 22, 2025 Place: Kolkata

Kamal Kishor Sewoda Company Secretary Membership No.: A37954

SKIPPER

SKIPPER LIMITED CIN: L40104WB1981PLC033408

Registered Office: 3A. Loudon Street. 1st Floor, Kolkata - 700 017 Phone: (033) 2289 5731, Fax: (033) 2289 5733

Email: investor.relations@skipperlimited.com, Website: www.skipperlimited.com

NOTICE

- NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting ("AGM") of Skipper Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 23rd September, 2025 at 11: 30 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice convening the meeting (the Notice) in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and circulars issued by Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 (hereinafter collectively referred to as "Circulars"). The members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM facility provided by National Securities
- In compliance with the above circulars, the Notice convening the 44th AGM ("Notice") and the Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 will only be sent through email to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e M/s. Maheshwari Datamatics Private Limited ("MDPL")/Depository Participants. Further, a letter providing the weblink for accessing the Notice of the AGM and Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 will be sent to those shareholders who have not registered their email addresses. The Notice will also be available on the Company's website at www.skipperlimited.com and on the website of the stock exchanges where equity shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The instructions for joining the AGM through VC/ OAVM and the manner of taking part in e-voting process will be provided along with the Notice and Integrated Annual Report.
- Members holding shares in physical mode or whose e-mail addresses are not registered with the Company may cast their votes through e-voting system, after registering the same with the RTA. Also, members who have not yet updated their bank mandate for receiving dividend directly into their bank accounts through any RBI approved electronic mode of payment may register the same with the RTA, by sending duly completed ISR-1 available on their website at https://mdpl.in, Members holding share in demat mode should update their email addresses and bank mandate directly with their respective Depository Participants. SEBI vide its Master Circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7th May,
- 2024 (subsequently amended by Circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/181 dated 17th November, 2023 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 dated 10th June, 2024) has mandated that with effect from April 1, 2024, dividend to Shareholders (holding shares in physical form), shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, contact details including mobile number, bank account details and specimen signature to the RTA.

Members may refer to the said SEBI Circulars available on the Company's website, i.e. www.skipperlimited.com under the tab Investors-Shareholder Information and on the RTA's website, i.e. www.mdpl.in under the tab Important Downloads.

e-Voting Information:

Place: Kolkata

Date: 23.08.2025

votes on resolutions which are set out in the Notice of the AGM. Shareholders have the option to either cast their vote using the remote voting facility prior to the AGM or e-Voting during the AGM, Detailed instruction & for remote e-Voting/e-Voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM to the shareholders of the Company.

a. Remote e-Voting facility ("remote e-Voting) is provided to the shareholders to cast their

b. In case of any queries/ grievances relating to e-Voting, members may refer to "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" and "e-Voting Manual - Shareholder.pdf" available at the "Download" section of NSDL e-Voting website, i.e., www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager of NSDL at e-mail id: evoting@nsdl.com. Members holding securities in demat mode with CDSL, can call at Toll Free No.: 1800 21 09911 or at e-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any further assistance, Members may also contact Mrs. Anu Singh, Company Secretary & Compliance Officer, Skipper Limited at Telephone No.: 033 2289 5731 or at e-mail ID investor.relations@skipperlimited.com

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and SEBI. For Skipper Limited

> Anu Singh (Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Ahmedabad

Date: August 22, 2025

Members, holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 8, 2025, may cast their votes by remote e-voting or e-voting at the AGM, on the business(es) as set out in Notice, by referring to procedure for remote e-voting/e-voting at the AGM, given in Notice of the AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to the paid-up share capital of the Company held by them as on the cutoff date. A person who is not a shareholder as on the cut-off date should treat this communication for information purpose only. Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after dispatch of notice and holds share as on the cut-off date, may follow the process provided in the Notice for remote e-voting or e-voting at the AGM. Members may contact Kfin for any assistance

Limited ("e-voting service provider") website at https://evoting.kfintech.com.

The remote e-voting period shall commence on Friday, September 12, 2025 at 09:00 A.M. (IST) and ends on Sunday, September 14, 2025 at 05.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by Kfin upon expiry of aforesaid period. Members shall not be allowed to vote electronically beyond Sunday, September 14, 2025 at 05:00 P.M (IST). Members who have cast their vote by remote evoting may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote is casted by the member on a resolution, the member will not be allowed to modify or change his/her vote subsequently. In case members have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and

evoting manual available at https://evoting.kfintech.com.under help section or call on 1800 309 4001 (toll free). All grievances connected

with the facility for voting by electronic means may be addressed to KFin by sending an email to evoting@kfintech.com or call 1800 309. 4001 (Toll Free). In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members are requested to contact:

Name & Designation: Mr. Sashidhar S Mannava, Vice President or Mr. Balaji Reddy, Senior Manager

E-mail IDs: einward.ris@kfintech.com; evoting@kfintech.com; balajireddy.s@kfintech.com Address: Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032.

Phone No. 040 6716 2222, Fax No. 040 2342 0814, Toll Free No. 1800 309 4001

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

By Order of the Board of Directors For Ethos Limited Shubham Kandhway

Date: August 23, 2025 Company Secretary Membership No.: F10757 Place: Gurugram

IRM ENERGY LIMITED

CIN- L40100GJ2015PLC085213 Registered Office: 4th Floor, Block 8, Magnet Corporate Park, Near Sola Bridge, S.G. Highway, Ahmedabad,

Gujarat, India - 380054; Email: investor.relations@irmenergy.com; Website: www.irmenergy.com: Phone: 07949031500

NOTICE OF 10™ ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 10" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of IRM Energy Limited ("Company") will be

held on Thursday, September 25, 2025 at 09:00 a.m. (ISD) through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") pursuant to General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 20, 2020 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBi/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 dated January 05, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the businesses as set out in the Notice convening the 10" AGM.

In accordance with the aforesaid circulars, Notice convening the 10" AGM and the Annual Report for the FY 2024-25 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA or with the respective Depository Participants. A letter providing the web-link of the Annual Report will be sent to those members whose email addresses are not

a. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with their respective

Members who have not registered their e-mail address, are requested to register/update the same at the earliest by following below

- Depository Participant; Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address with the Company, are requested
- to register/update the same with the Company by sending email at investor.relations@irmenergy.com or with MUFG Intime India Private Limited, Registrar and Transfer Agent ("RTA") of the Company at rnt, helpdesk@in.mpms.mufg.com quoting folio number.

Members may note that the Board of Directors in its meeting held on May 15, 2025, has recommended a final dividend of Rs. 1.50 per equity share of Rs. 10/- each (15%) for the FY ended March 31, 2025, subject to approval of members at the ensuing AGM. The Record Date for the purpose of Final Dividend for the FY 2024-25 is Thursday, September 18, 2025. On approval, the dividend, subject to deduction of tax at source, will be paid to the members within stipulated period of 30 days from the date of declaration through various online transfer modes to those members who have updated their bank account details. For members who have not updated, their bank account details, dividend warrants/demand drafts/cheques will be sent to their registered address. To avoid delay in receiving the dividend, members are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account.

Members are also informed that in terms of the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after April 01, 2020 will be taxable in the hands of the recipient. The Company shall therefore be required to deduct tax at source ("TDS") at the time of making payment of the final dividend to the shareholders. The rate of tax to be deducted depends on the residential status of the shareholder, documents submitted by the shareholder and accepted by the Company. Adetailed note providing particular of rate of tax to be deducted, documents to be submitted and the procedure to be followed is provided on the website of the Company at https://www.irmenergy.com/investor/#other-documents-2-2

The Company will provide the remote e-voting facility to all its members to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice.

Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for joining the 10" AGM through VC/OAVM and for casting votes through remote e-voting shall be provided in the AGM Notice. Members attending the meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Notice convening the 10" AGM and the Annual Report for the FY 2024-25 will also be available on the websites of the Company at

www.irmenergy.com and website of the stock exchanges viz. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of MUFG Intime India Private Limited, RTA at https://instavote.linkintime.co.in, in due course. By Order of the Board

Akshit Soni

For, IRM Energy Limited

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED Corporate Identification Number: L55209MP2018PLC076125

Registered Office: H-1 Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore, Indore- 452010, Madhya Pradesh, India Tel. No. +91-731-4006666; Email: cs@shilindore.com Website: www.shilindore.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 7,92,118 (SEVEN LAKHS NINETY TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND EIGHTEEN ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.00% OF TOTAL VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY, BY CENTURY 21 OFFICESPACE PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER") TOGETHER WITH PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER NAMELY, CENTURY 21 TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED ("PAC-1"), M.P.ENTERTAINMENT & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED ("PAC-2"), PRINT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED ("PAC-3") (HEREINAFTER PAC-1, PAC-2, PAC-3 COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED (THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") (HEREINAFTER ALTOGETHER REFERRED TO AS THE "OPEN OFFER" OR "OFFER"). This advertisement ("Post Offer PA") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("Manager to the Offer") on behalf of Acquirer along with PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. This Post-Offer Advertisement should be read

in continuation of, and in conjunction with the:

- a) Public announcement dated February March 28, 2025 ("Public Announcement" or "PA");
- b) Detailed public statement dated April 07, 2025 published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) and Madrasmani (Chennai Edition) ("Detailed Public Statement" or "DPS");
- Draft letter of offer dated April 16, 2025 ("DLOF");
- d) Letter of offer dated July 15, 2025 ("Letter of Offer" or "LOF");
- corrigendum to DPS dated July 11, 2025 published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) and Madrasmani (Chennai Edition) ("Corrigendum to DPS"); and
- Pre-offer advertisement dated July 24, 2025, published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Mumbai Lakshdeep (Mumbai edition), Madrasmani (Chennai Edition) and Indore Samachar" (Indore Edition) ("Pre-Offer PA"). Pursuant to change in the registered office address of the Target Company from Chennai to Indore w.e.f. April 15, 2025 we have additionally released Pre-Offer PA, IDC Recommendations and this Post Offer PA in Indore Samachar.

Capitalized terms used but not defined in this Post-Offer PA shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer, the Pre-Offer PA and Corrigendum to DPS. The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer:

Sayaji Hotels (Indore) Limited Name of the Target Company: Century 21 Officespace Private Limited Name of the Acquirer and PACs:

Century 21 Town Planners Private Limited M.P.Entertainment & Developers Private Limited Print Solutions Private Limited Name of the Manager to the Offer: Systematix Corporate Services Limited Name of the Registrar to the Offer: MUFG Intime India Private Limited (Formerly Known as Link Intime India Private Limited) Offer Details: a. Date of Opening of the Offer Friday, July 25, 2025 b. Date of Closure of the Offer Thursday, August 07, 2025 Date of Acceptance/Rejection: Wednesday, August 20, 2025

Date of Payment of Consideration: Thursday, August 21, 2025 Details of Acquisition: **Particulars** Proposed in the No. Offer Document

Offer Price (per Equity Share) Rs. 1250 Rs. 1250 Fully Paid-up Shares Not applicable Not applicable Partiv Paid-up Shares Aggregate number of shares tendered 7,92,118 3,78,251 3,78,251 Aggregate number of shares accepted 7.92,118 Size of the Offer Rs. 99,01,47,500 Rs. 47,28,13,750 Number of shares multiplied by Offer Price per share). Shareholding of the Acquirer and the PACs before Agreement / Public Announcement Number 7,35,930 7,35,930 % of total Share Capital & Voting Capital 24.16% 24.16% Shares acquired by the Acquirer by way of Agreements 82,755 82,755 Number 2.72% 2.72% % of total Share Capital & Voting Capital Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer and the PACs 3,78,251 7,92,118 26.00% 12.42% % of total Share Capital & Voting Capital Shares acquired by the Acquirer and the PACs after Detailed Public Statement Number of shares acquired NIL Not Applicable Price of the shares acquired Not Applicable % of the shares acquired 8.9 Post offer shareholding of the Acquirer and the PACs 11,96,936 16,10,803

 % of total Share Capital & Voting Capital 31.77% 19.35% 31.77% Excluding the Acquirer, the PACs and the existing Promoter and Promoter Group of the Target Company * Post Open Offer, it is found that the Target Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of SEBI (LODR) Regulations read with Securities Contract (Regulations) Rules, 1957 as amended. The Acquirer and the PACs including existing Promoter and Promoter Group of the Target Company will jointly comply with the provisions of Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations to maintain the MPS in accordance with the SCRR and the applicable laws.

52.87%

Post-Offer*

1,75,653

Pre-Offer *

9.67,771

 Post Open Offer, the Acquirer along with the PACs will hold 11,96,936 Equity Shares aggregating to 39.29% of Voting Share Capital of the Target Company

0. The Acquirer and the PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer PA and also for

the obligations as laid down in the SEBI (SAST) Regulations. 1. This Post-Offer PA will also be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com) and Manager to

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND THE PACS

Systematix Corporate Services Limited The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606,



% of total Share Capital & Voting Capital

8.10 Pre & Post offer shareholding of the Public

the Offer (www.systematixgroup.in).

Plot No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Telephone: +91-22-6704 8000 Fax +91-22-6704 8022 Email: ecm@systematixgroup.in Contact Person: Mr. Kuldeep Singh SEBI Registration Number: INM000004224



C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India. Tel. No.: +91-8108114949 Email: sayajihotels.offer@in.mpms.mufg.com Contact Person: Pradnya Karanjekar SEBI Registration Number: INR000004058

Sd/-

PAC - 3

Print Solutions

Private Limited

MUFG Intime India Private Limited

For and on behalf of the Acquirer and the PACs

Century 21 Officespace Century 21 Town Planners **Private Limited** Private Limited Acquirer PAC-1

M.P. Entertainment & Developers Private Limited PAC-2

Date : August 23, 2025

Place: Indore.

Company Secretary & Compliance Officer epaper.financialexpress.com



चम्बक से चम्बक बनाओ

हज़ार चीजें घर मे होती है पर चुम्चक दिख जाये तो हर उम्र का व्यक्ति उससे खेलने लगता है चुंबकीय पानी रोगों का इलाज करता है चंबकीय प्राकृतिक होता पर लम्बे समय तक लोहे पर लपेर कर रखे विद्युत प्रवाहित करो तो उसमे चुंबकीय गुण आ जाते है. मैं रही हैं उन चंबकीय व्यक्तित्व की. जो एकांत मे बैठे हो तो भी अपने वातावरण को प्रभावित करते हैं, फिर जो लम्बे समय तक साथ रहे. उनका स्मरण करें उनसे जान साधना सीखे तो वे सब विशेषताएं उसमे भी प्रतिबिम्बत होने लगती है, ये मात्र आध्यात्मिक बात नहीं है. किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है।

शेरपा डकू वैज्ञानिक लिशिसस्ट कुछ भी. वे अपने आप में स्कूल बन जाते हैं. संगीत नृत्य में घराने होते हैं, आस्तिक नास्तिक बन जाते हैं. संगात नृत्य म घरान हत ह, आस्तक नाक्षतक अस्तित्वव्यादों, ये सब स्कूल माने को हे श्रट दर्शन है भारत में, इसी तरह पृथ्वी के हर भूभग में कुछ लोग हुए जिन्होंने उक्त काल को प्रभावित किया. कन्फ्सियस चटटो अरस्तु मालध्यस, मेंकाइब्य, सूची बहुत लान्यों है. प्रश्न इसी आसम्प्रभाद है कि कभी किसी अन को पदुना ही नहीं चाहते हैं. जबकि विदेशियों ने असने साथ एशिया के चुन्वको का भी अध्ययन किया. हम रूढ़ कर्मकांडो मे फंसे रहे व उन लोगो ने

प्राचीन ग्रंथों से पढ़ कर नई खोजें की व दुनिया पे राज भी किया। जब नेट गुगल आया तो हम कहने लगे इसका मूल बेदो उपनिषदों पुराणों या जैन वांगमय मे है. बात चुंबकीय तत्व पे विद्युत प्रवाह करने . की है. भारत की गुरु शिष्य परम्परा इसका जीवंत प्रमाण है. लंबी गुलामी ने हमारी मीलिकता को कुद कर दिया. लम्बे समय से हम आज़ाद है. हमारे यहाँ बंडर बॉय, गूगल बॉय है, कुछ दिन दिखते फिर कहा लोप हो जाते हैं. पता ही नहीं लगता है. वर्ड लोगों की प्रतिभा विदेशों में जा के चमकी है. हमारे यहाँ बहुत चुंबकीय लोग है उनका उचित विद्युत तरंगे नहीं मिल पर रही इसलिए अधिकाश खोज उधर हुई है. हवाई जहाज देखते ही हम चीखे, पुष्पक विमान था, हाँ था पर अब हमारी मेधा क्यूँ केंकड़ वत्ती की भेंट चढ़ रही है।

सारी सरकारे बोट जाति सत्ता मे फांसी है. एक विश्वविद्यालय विदेश ासा नहीं है यहाँ बस हम अतीत के नालंदा तक्षशिला का ही गीत ग रहे हैं. कस्बट तो लेनी ही होंगी क्युंकि सम्भावनाये बहुत है जिनको उलझा के मसल दिया जाता है, जो न हो विकास की इस राह पर युवाओं को डट के काम करना होगा. एक युवा ने अभी करोड़ का पैकेज छोड़ देश में स्टार्टअप किया उनको प्रोत्साहन देना बोट देने से बड़ा कर्तव्य है. हमारी चुंबकीय शक्तियों का विकास हो ये माँ भारती की सच्ची आराधना है।

तकिए पर सिर रखने से पहले

बयान - तकिए पर सिर रखने से पहले खद से पछें आज जनता का

कितना पैसा खर्च हुआ दोगलापन और पाखंडा

सुप्रीम कोर्ट में दोनों महत्वपूर्ण याचिकाओं पर खुद का खैया बिल्कुल ठीक इसके विगरित? मौजूद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी की अवैधानिक नियुक्ति के मसले पर नियुक्ति से पहले लगी याचिका पर आज तक सुनवाई और फैसले को टालने का परिणाम आज हमारे सामने है। उसके बाद प्रथमदृष्टया लोकतांत्रिक परंपराओं को कुचल कर और गैर संवैधानिक एसआईआर प्रक्रिया को प्रत्यक्ष ही मान्यता दे कर मोदी सरकार द्वारा देश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या और उसकी उठी अर्थी को कांधा देने वाले महाशय

ऐसा लग रहा है मानो आसाराम बापू या राम-रहीम सदाचार का उपदेश दे रहे हो। आगे जब देश की दूसरी आजादी का इतिहास लिखा जाएगा तब संजीव भट्ट और उमर खालिद जैसों का नाम ऋाँतिकारियों की श्रेणी में लिखा जाएगा। अदालतों के क्या हाल हो गये हैं। आसाराम बापू और राम-रहीम को कितनी बार जमानतें और खैर संजीव भट्ट को तो छोड ही दो न्यायपालिका की किताब का सबसे स्याह फा। है उसका प्रकरण। लेकिन उमर खालिद को पांच साल हो गए। कोई भी कार्रवाई नहीं और जमानत भी नहीं। अदालतों के व्यवहार और फैसलों में कुछ और उपदेशों और भाषणों में कुछ न्याय के गिर्रागट राजनीतिक सत्ता की डाल पर बदलते रंग को देख अपना रंग भी बदल रहे हैं। उन्हें भी दिखने लगा है कि मोदी सत्ता अब कड़ दिनों की मेहमान है। एक देश एक चुनाव के मोदी सरकार के मुख्य एजेंडा पर सुप्रीम कोर्ट के जितने मुख्य न्यायाधीश थे।

ाजात नुष्क न्यायाजारा था सस्कार से मिले सुर मेरा तुम्हरा कर रहे थे इन माहों में देश में मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बोट की चोरी पकड़ आने और उसके तरीके पकड़ आने के बाद जनता में इसके विरुद्ध उठे जनाकोश को देख कर और भांप कर अपने उसके किरुद्ध बयानबाजी देकर अपनी बिगडी छिन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में जिस्टस चंद्रचूड़ के बाद जिस्स संजीव खवा का ताजा बयान है। आज के दन रालातों के लिए जिस्टस खत्रा और दत्ता की बैंच भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया को मान्यता देने के लिए सारी संवैधानिक परंपराओं. स्थापित धारणाओं, मतदाता के अधिकार की पूर्णरूपेण उपेक्षा और कानूनों के विपरित चनाव आयोग को इसे कार्यन्वित करने में मदद ही कर रहा है। सप्रीम कोर्ट अपने पूर्ववर्तियों के रास्ते पर चल रहा है। ईवीएम और चुनाव अ से संबंधित 2019 से लगी 2024 तक लगी सारी याचिकाओं पर 2024 का लोकसभा चुनाव आने तक सुनवाई टाली नतीजा फिर भी सिफर।उसके बद जो हुआ वह देश की जनता के सामने है। ठीक वही प्रक्रिया और तरीका सरकार और चुनाव आयोग को फेवर करने के लिए इस बार भी अपनाया

अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी भी इमानवरी दिखाता तो एसआरआई को मान्यता देते हुए भी इस प्रक्रिया के खामियों को दूर करने के लिए किश्तों में आदेश नहीं देता। अभी भी मूल बात की जो मतदाता को मतदान में शामिल करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है वो जिम्मेदारी वो राजनीतिक दलों पर डाल रहा है। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनमें से बहुमत मतदाता अशिक्षित और टेक्नोलॉजी सावी नहीं है कईयों के पास मांगे गए डाक्युमेंट भी नहीं होंगे।

. लाखों मतदाताओं को सबमिट करने के लिए भी केवल 9 दिन। देश जनता और लोकतंत्र के साथ सप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा मजाक है। इस जनता जार राज्यात्र ये ताच चुजान याद या त्याराना बड़ा नजान है। इस बात की शंका प्रबल है कि एसआईआर की नौटंकी तो बिहार में तो बहाना है बोटर लिस्ट जिससे चुनाव होना है मई 2025 तक ही तैयार हो गई होगी विषक्ष के बोट नहीं पड़े वाली तरकीब लाई गई। पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सारे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू है।

विजय दलाल

टंडे डामर से होगा सड़कों का सुधार, जेट पेचर मशीन से भरे जाएंगे गह्ने

इंदौर । बारिश में सड़के खराब हो गई हैं । सड़कों में बड़े – बड़े गड़े हो गए हैं। बारिश के चलते इनकी मरम्मत भी एक बडी चुनौती होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने प्रेशर इंजेक्शन के जरिए ठंडे डामर से सड़क के गड्ढे भरने और सड़कों की

प्रथम चरण में 417 किलोमीटर लंबी सडकों का सुधार

भोपाल ईएमएस बारिश के दौरान

. बारिश में ही इनकी मरम्मत हो सके। इसके लिए लोक निर्माण विभाग न अट ५५६ रहा ।.. उपयोग करने का निर्णय लिया है। इस मशीन के जरिए प्रेशर इंजेक्शन तकनीकी का उपयोग किया जाता है

ठंडे डामर (तास्कोल) से खराब सडकों और गड़े को ठीक किया जाता है। ठंडे डामर मे गिट्टी मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। द्यमर को गर्म करने के लिए आग नहीं जलानी

मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण

नारिया के टीमन भी

विभाग ने चार मशीनों की मदद से भोपाल और आसपास के चार जिलों की सड़कों को सुधारने का दावा किया जा रहा है।

इंजीनियर इन चीफ केपीएस राणा के ार मध्य प्रदेश के इंजीनियर हरियाणा

मरम्मत की गई थी। गोवा में भी दो मशीनों के माध्यम से सड़कों में

इसके बाद मध्य प्रदेश

किया जा स्टा है। प्रथम चरण में भोपाल बधनी रायसेन और सागर जिले की सड़कों की मरम्मत का काम होगा। इसके परिणाम देखने के बाद

मशीनों के जरिए 12000 नवीन तकनीकी किलोमीटर सड़कों की

पहले गड्ढे की धूल को हटाया जाता है। फिर गड्ढे में ठंडी तारकोल की एक परत बिछई . सधार कार्य किया जा रहा जाती है। उसके बाद गिट्टी और डामर का मिश्रण प्रेशर से डाला जाता है। ताकि गड्टे में

जो मिश्रण भरा जा रहा है। मे सड़कों को सुधारने के लिए शुरुआती दौर में इस जरिए उसे कांपैकर कर दिया जाता है। तकनीकी का उपयोग के साथ किया जा सकता है। अभी 15 जन से 15 अक्टूबर के बीच में सड़क मर के कार्य में रोक होती थी।

इन मशीनों के आने के बाद वर्षा काल में सड़कों का सुधार कार्य किया जा आगे कैसे काम करना है। इसका निर्णय

मशीन में लगे कंप्रेसर की मदद से

उसमें कोई बबल ना हो। फिर प्लेट के

रसात के दौरान भी इस काम को आसानी

अमरनाथ श्राइन बोर्ड मुद्दे पर विरोध स्वरूप ७ साल पहले निकली यात्रा के दौरान दंगे के आरोप से भाजपा नेता बरी

इन्दौर । न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरव गोस्वामी की कोर्ट ने धारा 147, 294, 506, 336, 435, 448 के प्रकरण में भाजपा नेता जीतू कुशवाह एवं उसके साथियों के विरुद्ध कोई अपराधिक तथ्य नहीं पाए जाने से सभी को दोषमुक्त कर दिया।

प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि छत्रीपरा थाना पलिस द्वारा ३ जलाई २०18

व साधियों पर पलिस ने पथराव, मारपीट, तोड़फोड़, गाली देने. जान से मारने की धमकी देने व धार्मिक नारे लगाकर बलवा करने का अपराध दर्ज किया था।

आरोप था कि थाना क्षेत्र मे श्रीराम मंदिर से राधे राधे बाबा द्वारा निकाले गए धार्मिक जुलूस की व्यवस्था के दौरान इंदौर बंद होने के कारण दरगाह चौराहे पर जुलूस में शामिल इन नेताओं के कारण थाना क्षेत्र में *दं*गे जैसे सलात हो गए

मरे पर विरोध स्वरूप निकली थी। जिस पर असामाजिक तत्वों ने बम्बई बाजार चौराहे पर हमला कर दिया था।

तब कर्फ्यू भी लगा था। लिस ने कार्रवाई करतें यात्र निकालने वालों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज तोडफोड और बलवे के केस में प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया था जिस पर सक्षम न्यायालय ने सुनवाई करते

भगवान महावीर जन्मोत्सव में बच्चे बने महावीर, लघु नाटिका का मंचन

पद्मावती पोरवाल संघ के तत्वावधान में पोरवाल भवन जंगमपुरा में रविवार को भगवान महावीर जन्मोत्सव उल्लासपूर्वक

मनाया गया। इस अवसर पर महासतीजी धृतिजी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान महावीर के 27 भवों का वर्णन किया। जन्म वाचन में आपने माता त्रिशला के १४ स्वप्नों को अपनी रेखांकित किया। आपने कहा कि इन 14 स्वप्नों को देखकर राज्य के राजपरोहितों ने राजा सिद्धार्थ को आश्वस्त किया कि आपके यहां इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र होगा जो समस्त संसार का कल्याण करेगा।

कहते हैं उस दिन राजा सिध्दार्थ ने इतना असीम दान दिया कि राज्य के सभी गरीब धनवान बन गए और उसी दिन से जैन समाज में दान देने की परंपर प्रारंभ हो गई। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक haल एक उत्सव नहीं था बल्कि यह पुरे ब्रह्मांड के लिए अहिंसा, दया और त्याग का संदेश देने वाला

दिव्य क्षण था। इस अवसर पर बालरूप में भगवान महावीर बनकर आए बच्चों को देखकर कई माताएं भावविभोर हो गई। पोरवाल संघ के अध्यक्ष विनोद जैन एवं मंत्री कमल जैन एवं चातुर्मास समिति प्रमुख मोहन जैन व सुनील जैन ने बताया कि जन्म वाचन समारोह में उपस्थित लोगों ने अनेक छोटे छोटे बच्चों को भगवान महावीर के वेश में देखा तो वे मंत्रमन्ध समाज की बहनों द्वारा एक सुंदर भगवा-महावीर पर आधारित लघु नाटिका का मंचन किया गया। प्रचार प्रमुख मुकेश जैन एवं अंकित जैन ने बताया कि जन्म होने के बाद बालक महावीर को पालने में झुलाया गया। प्रभावना का लाभ शांतिलाल बरवाड़ वाले एवं सुरेंद्र खातोली वालों ने लिया। जन्म वाचन समारोह में समाजसेवी चौथमल जैन , राष्ट्रीय अध्यक्ष छगनलाल जैन, धर्मचंद जैन, अशोक जैन जैन पड़ी, पारस जैन, सरेन्द्र जैन खातोली

बाबूलाल जैन भूरीपहाड़ी, महेश सिंगोरवाले, तेजमल

जैन, पीयूष जैन, हनुमान प्रसाद जैन सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे।

पं. कपिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज

इ.सी.र । जिला न्यायालय ने ज्योतिषकी आद में तात्रिक त्रियाएं कर ने के आरोप में प्रकटाए पटित कपिल जार्मा की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया। तीन दिन पहले एसटीएसएफ की पड़ित कपिल शर्मा पर कार्राइ दौरान उनके पास से उन्हुक तीन नाखून, जंगली सुअर के चार दात, चार पहाड़ी कार्रुवर और एक जंगली तोता मिलने के पश्चात उन्हें गिरस्तार कर लिया शाजांच में पाया गया शांकि वे इन वस्तुओं का इस्तेमाल ज्योतिष और तात्रिक क्रियाओं में करते थे। स्टेटटाझगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) द्वारापंडित कपिल शर्मा के पास से बरामदवन्यजीवों के अंगों की फॉरेंसिक जांच कराते पूरी रिपोर्ट वन विभाग मुख्यालय को भेज दी गई है।



अम्बानी बनाम अम्बानी

अम्बानी

फॉड़ में फंसते जा रहे हैं तो दसे धीरूभाई अम्बानी द्वारा स्थापित स्लियंस इंडस्ट्रीज को अब्रॉड मे पहंचाने में अम्बानी परिवार का ु गम रोशन करने में कोई कस नहीं छोड़ रहे हैं.....

दीप्ति प्रदीप बंदवार, 102, वेदव्यास कॉलोनी, अंकर अस्पताल के पास, रतल (H.U.).... 73545 10767

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF SECURITIES AND EXCHANCE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REQULATIONS, 2011, AS AMENDED OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 17.2 118 SEVEN LAKES NIKETY TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND EXCHITEN ONLY) FULLY PAGIL-PE COUNTY SHARES OF FACE VALUE OF 7 10-6 EACH ("FOUTTY SHARES") REPRESENTING 26.0% OF TOTAL VOTING SHARE CAPITAL (AS DETNICE) BELOW) OF SAVAL HOTES, (NICORE) LINITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PURIL OS HARBHOLDERS (AS DEFNICE) BELOW) OF SAVAL HOTES, (NICORE) LINITED ("TARGET COFFICESPACE PRIVATE LINITED ("ACQUIRER") TOGETHER WITH PERSONS ACTING IN CONCRET WITH THE ACQUIRER NICORE WITH PERSONS ACTING IN CONCRET WITH THE ACQUIRER LINITED ("PAC-3"), PRIVATE COUNTRY OF THE ACQUIRER NITH PERSONS ACTING IN CONCRET WITH THE ACQUIRER LINITED ("PAC-3"), PRIVATE COUNTRY OF THE ACQUIRER NITH PERSONS ACTING IN CONCRET WITH THE ACQUIRER LINITED ("PAC-3"), PRIVATE COUNTRY OF THE ACQUIRER NITH OF THE ACQUIRER NIT

- Public announcement dated February March 28, 2025 (Public Announcement or "PA");
 Detailed public statement dated April 07, 2025 published in the following newspapers; Francial Express (all editions), Jamas discinsi, Murnical statement, Marchael (Minima Administration) and Medianament (Chernal Edition) ("Detailed Public Statement" or "DPS").
 Data faster offer dated April 16, 2025 ("DuCP");
 Leater offer dated April 1

Sayaji Hotels (Indore) Limited
Century 21 Officespace Private
Century 21 Town Planners Priv
M.P.Entertainment & Develope Name of the Target Comp ayaji Hodes (modra) umisid entury 21 Officespace Private Limites sutury 21 Town Planners Private Limit P.Eriterta inment & Developers Privat init Solutions Private Limited ystematix Corporate Services Limited Name of the Manager to the Offe

7. D				025		
	etalls of Acquisition:					
SI. No.				ed in the ocument	Act	uals
8.1	Offer Price (per Equity Share) Fully Paid-up Shares Partly Paid-up Shares			1250 plicable		1250 plicable
8.2	Aggregate number of shares tendered		7,90	1,118	3,78	1,251
8.3	Aggregate number of shares accepted		7,90	118	3,76	1,251
8.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share).		Rs. 99,0	1,47,500	Rs. 47,2	8,13,750
8.5	Shareholding of the Acquirer and the PACs before Agreen Public Announcement Number Northold Share Gapital & Voting Gapital	nent /		i,990 16%		i,930 16%
8.6	Shares acquired by the Acquirer by way of Agreements Number Softotal Share Capital & Victing Capital			755 2%		756 2%
8.7	Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer and the PACs Number 's of total Share Capital & Voting Capital			!,118 00%		1,251 42%
8.8	Shares acquired by the Acquirer and the PACs after De Public Statement • Number of shares acquired • "Northe shares acquired • "Northe shares acquired	tailed	Not Ap	IL picable IL	Not Ap	IL picable IL
8.9	Post offer shareholding of the Acquirer and the PACs Number Softotal Share Capital & Voting Capital			0,803 87%		5,936 29%
	Pre & Post offer shareholding of the Public Number % of total Share Capital & Voting Capital whole Acquirer the PACs and the existing Promoter and		Pre-Offer * 9,67,771 31,77%	Post-Offer* 1,75,653 5,77%	Pre-Offer* 9,67,771 31,77%	Post-Offer* 5,89,520 19,35%

- . MPCs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Por d down in the SEBI (SAST) Regulations. ill also be available on the websitis of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.besindie
- ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND THE PACS

SYSTEMATIX GROUP

MUFG

stematix Corporate Services Limited e Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606, et No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Comple indra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra ocet regardation number: NM00004234 MUFG infime India Private Limited C-101, 1st Roor, 247 Park, LBS Marg, Vikholi (Weet), Numbai 400 083, Maharashtra, India. Tel. No.: 191-21108114949 Email: sayqinbides oforigin mpm smrufg.com Contact Person: Pradrya Karanjakar

BOOK RUNNING LEAD MANAGER

Capital Advisors Pvt. Ltd.

Beeline Capital Advisors Private Limited

B 1311-1314 Thirteenth Floor Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road Thaltej, Ahmedabad 380054, Gujarat Telephone: +91 79 4918 5784; E-mail: mb@beelinemb.com; Investor grievance e-mail: ig@beelinemb.com

Website: https://beelinemb.com/; Contact person: Nikhil Shah; SEBI Registration No.: INM000012917

REGISTRAR TO THE ISSUE

MUFG Intime India Private Limited (formerly Link intime India Private Limited) C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, Telephone: +91 8108114949 E-mail: amantahealthcare.jpo@linkintime.co.in: Investor grievance e-mail: amantahealthcare.jpo@linkintime.co.in

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER Nikhita Dinodia, Amanta Healthcare Limited

8th Floor, Shaligram Corporates, C.J. Marg, Ambli, Ahmedabad - 380058 Gujarat, India Telephone: 079 67777600; E-mail: cs@amanta.co.in; Website: www.amanta.co.in

Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, the Book Running Lead Manager or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode.

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the 'Risk Factors' beginning on page 29 of the RHP will be made available on the websites of the BRLM, Beeline Capital Advisors Private Limited at https://beelinemb.com/ and at the website of the Company, AMANTA HEALTHCARE LIMITED at www.amanta.co.in and the websites of the Stock Exchanges, for BSE at www.bseindia.com and for NSE Limited at www.nseindia.com. AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLM and the Registrar to the Issue at: www.amanta.co.in, https://beelinemb.com/ and www.linkintime.co.in, respectively.

Website: www.linkintime.co.in; Contact person: Shanti Gopalkrishnan; SEBI registration number: INR000004058

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of our Company, AMANTA HEALTHCARE LIMITED: Tel: 079 67777600; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: +91 79 4918 5784 and Syndicate Members: Spread X Securities Private Limited, Telephone: +91 79 6907 2018, Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Issue. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock.

ESCROW COLLECTION BANK: Axis Bank Limited | REFUND BANK: Axis Bank Limited | PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK: Axis Bank Limited | SPONSOR BANK: Axis Bank Limited

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

Place: Ahmedabad Date: August 23, 2025

oswal

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For AMANTA HEALTHCARE LIMITED On behalf of the Board of Directors

Nikhita Dinodia 4

Company Secretary and Compliance Officer 2

AMANTA HEALTHCARE LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public Issue of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated August 22, 2025 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLM i.e., Beeline Capital Advisors Private Limited at https://beelinemb.com/, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.nseindia.com and the website of the and for details relating to such risks, please see the section "Risk Factors" beginning on page 29 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but should only rely on the information included in the RHP filed by the Company with the RoC.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction, including India. The Equity Shares offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not 🛎 subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities Act and applicable state securities and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S").

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड motilal

कॉर्पोरेट कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. **सीएस:** 8291889898 वेबसाइटः www.motilaloswalhf.com, ईमेलः hfquery@motilaloaswal.com

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम्, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित। आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं/गारंटरा/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि **मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड** (पहले एस्पायर होम

फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के पास बंधक रखी गई नीचे उल्लिखित संपत्ति को **''जहां है जैसी है', ''जो है जैसी है'' और ''जो कूछ भी** हैं" के आधार पर "ऑनलाइन ई—नीलामी" के माध्यम से बेचा जाएगा, ताकि बकाया राशि और आगे के ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा सके। ई-नीलाभी की तिथि और समयः दिनांकः 03-10-2025 11:00 सुबह से 02:00 अपराह्व तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 02-10-2025							
उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) //ऋण खाता	मांग नोटिस की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि				
लैजः LXMOGURGAON5523 -240702553 शाखाः गुड़गांव उधारकर्ताः शाश्वत मिश्रा सह—उधारकर्ताः ईशा तिवारी	14–05–2025, : रू 1757053/ – (केवल सत्रह लाख सत्तावन हजार तिरपन रुपये)	संपत्ति का भूतल भाग, खसरा संख्या 45 / 10, पूर्वी गुरु अंगद नगर, गाँव खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली (गली संख्या 2, लक्ष्मी नगर) में से, मदर डेयरी के पास, पूर्वी दिल्ली—110092					

. नीलामी बोली दस्तावेज की आगे की शर्तों और नियमों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाती है। बोलीदाता बोली लगाने की जानकारी और सहायत ई—नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और बोली फॉर्म जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा, के लिए हमारे ई—नीलामी सेवा प्रदाता, M/S ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल: https://www.auctionbazaar.com पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी की शर्तों और प्रक्रियाओं को देख सकते हैं और जानी महेंद्र 7045979708 और विवेक कुमार पांडे 8655787062 से संपर्क कर सकते हैं, विवरण ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल में उपलब्ध हैं और उनके केंद्रीकृत हेल्पडेस्क +91 83709 69696, ई-मेल आईडी: contact@auctionbazaar.com से संपर्क कर सकते हैं: हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, (मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड) दिनांक: 25.08.2025 स्थान: दिल्ली

(पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

PRE-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT, CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT & THE LETTER OF OFFER UNDER REGULATION18(7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED

Regd. Office: Unit 204, Plaza P-3, Central Square, 20 Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Sadar Bazar, Delhi, India - 110006 Tel. No. +91 7992313157, Website: www.snsind.in & E-Mail: sns.prop.ltd@gmail.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF 3.90.000 (THREE LAKH NINETY THOUSAND) EQUITY SHARES OF Rs. 10 EACH FROM THE SHAREHOLDERS OF SNS PROPERTIES AND LEASING LIMITED, (HEREINAFTER REFERRED TO AS "SNS"/ "TARGET COMPANY"/ "TC") BY MS. SHWETA KALRA ("ACQUIRER 1") AND MS. RACHNA KALRA ("ACQUIRER 2") (HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS"), PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH REGULATION 3(1) AND REGULATION 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA(SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED["SEBI (SAST) REGULATIONS"]

This Pre-Offer Public Announcement, Corrigendum to the Detailed Public Statement & the Letter of Offer is being issued by Fintellectual Corporate Advisors Private Limited ('Manager to the Offer'), for and on behalf of Ms. Shweta Kaira ("Acquirer 1") and Ms. Rachna Kaira ("Acquirer 2") (Hereinafter collectively referred to as "Acquirers") pursuant to regulation 18(7) of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ('SEBI (SAST) Regulations, 'I, in respect of the Open Offer to acquire 3,90,000 (Three Lakh Ninety Thousand) Equity Shares of Rs.10/- each of SNS Properties and Leasing Limited, (Hersinafter Referred to as "SNS" / "Target Company" / "TC") representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the Voting Share Capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") with respect to the aforementioned offer was published in all editions of the Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated) on Wednesday, April

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO THE . The Offer Price is Rs.10/- (Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share. The Offer price will be paid in Cash in accordance with

- Regulation9(1)(a) of the SEBI (SAST) Regulation, 2011 and subject to terms and conditions mentioned in PA, the DPS and Letter of Offer. There has been no revision in the Offer Price. The Committee of Independent Directors (hereinafter referred to as "IDC") of the Target Company recommended that the Offer Price of Rs. 10/-(Rupees Ten Only) per fully paid-up Equity Share is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. The recommendation of
- the IDC was published on August 21, 2025, in all editions of the Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) at Mumbai (being the place where the Stock Exchange is situated). Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the offer and take an informed decision. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. Further, there has been no competitive bid to this
- . The Letter of Offer (including Form of Acceptance-cum-acknowledgement) (hereinafter collectively referred to as "Letter of Offer") dated August 12, 2025, was mailed on August 19, 2025 through electronic means to all the Public Shareholders of the Target Company whose e-mail ids are registered with the Depositories and / or the Target Company, and the physical copies were dispatched on August 19, 2025, to all the Public Shareholders of the Target Company who are holding Physical Equity Shares and non-email registered shareholders as appeared in its Register of Members on August 11,2025. ('Identified Date'). The Letter of Offer is also available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) and is available on the Manager to the Offer website
- (www.fintellectualadvisors.com) and the Shareholders can also apply by downloading the form of acceptance from the websites as mentioned
- Public Shareholders are required to refer to the Section titled "Procedure for Acceptance and Settlement" at page 24 of the Letter of Offer in relation to inter afia, the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. A summary of procedure for tendering Equity Shares in the Open Offer is set out below:

a. In Case of Equity Shares held in dematerialized form: Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares in the dematerialized form

- under the Offer would have to do so through their respective Selling Brokers by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Offer and as per the procedure specified in paragraph 8.2 of the Letter of Offer b. In case of Equity Shares held in physical form: Public Shareholders holding Equity Shares in physical form may participate in the Open Offer
- through their respective Selling Broker by providing the relevant information and documents as mentioned in paragraph 8.3 of the Letter of c. In case of non-receipt of the Letter of Offer: Public Shareholders may (i) download the same from the SEBI website (www.sebi.gov.in) and can apply by using the same; or (ii) obtain a physical copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares. Alternatively, such Public Shareholders can download the soft copy of the Letter of Offer from the SEBI website www.sebi.gov.in as well as from the Manager to the Offer website www.fintellectualadvisors.com. Alternatively, in case of nonreceipt of the Letter of Offer, Public Shareholders holding the Equity Shares may participate in the Open Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder(s), stating name, address, number of shares held, client ID number, DP name, DP ID number,

number of shares being tendered and other relevant documents as mentioned in the Letter of Offer. Such Public Shareholders have to ensure

- that their order is entered in the electronic platform to be made available by BSE before the Offer Closing Date The Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on May 08, 2025, in accordance with Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011, All observations from SEBI via letter number. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR2/P/OW/2025/21344/1 dated August 07, 2025, which was received on August 07, 2025, have been duly incorporated in the Letter of Offer, according to Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
- There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on April 23, 2025, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
- . As of the date of this Offer Opening Public Announcement, no statutory approvals were required by the Acquirers to complete this Offer. However,
- in case of any statutory approvals being required by the Acquirers at a later date before the closure of the Tendering Period, the Offer shall be subject to all such statutory. Revised Schedule of Activities:

Tentative Schedule of Activities	Original Schedule of Activities Day and Date	Revised Schedule of Activities (Day and Date)*
Date of the Public Announcement	Wednesday, April 23, 2025	Wednesday, April 23, 2025
Date of publication of the Detailed Public Statement	Wednesday, April 30, 2025	Wednesday, April 30, 2025
Last date of filing of the draft Letter of Offer with SEBI	Thursday, May 08, 2025	Thursday, May 08, 2025
Last date for a Competing Offer ^	Friday, May 23, 2025	Friday, May 23, 2025
Identified Date#	Tuesday, June 03, 2025	Monday, August 11, 2025
Last date by which Letter of Offer will be dispatched to the Shareholders	Tuesday, June 10, 2025	Tuesday, August 19, 2025
Last date by which an independent committee of the Board of Target Company shall give its recommendation	Friday, June 13, 2025	Thursday, August 21, 2025
Last date for revising the Offer Price/ Offer Size	Friday, June 13, 2025	Friday, August 22, 2025
Advertisement of Schedule of Activities for Open Offer, status of statutory and other approvals in newspaper	Monday, June 16, 2025	Monday, August 25, 2025
Date of commencement of tendering period (Offer Opening Date)	Tuesday, 17 June 2025	Tuesday, August 26, 2025
Date of expiry of tendering period (Offer Closing Date)	Monday, 30 June 2025	Wednesday, September 10, 2025
Date by which all requirements including payment of consideration would be completed	Monday, 14 July 2025	Wednesday, September 24, 2025

* The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various regulatory authorities and may have to be revised accordingly throughout this document.

Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of Equity Shares of the Target Company (except the Acquirer and the parties to the Share Purchase Agreement) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

There was no competing offer.

CORRIGENOUM TO THE LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS

The following errors were noted in the Letter of Offer, and the same are being corrected as under: Point no. 5.16 of the Letter of Offer:

"The financial information of the Target Company based on the unaudited financials statement for the 9 months period ended December 31, 2024, and audited financial statements for the financial year ended March 31, 2024, 2023, 2022 and are as follows:*

The correct statement of Point no. 5.16 of the Letter of Offer should read as follows: The financial information of the Target Company based on the audited financial statements for the financial years ended March 31, 2025,2024, 2023, and 2022 are

as follows:* All other terms and conditions mentioned in the Letter of Offer remain unchanged.

The Acquirers accepts the responsibility for the information contained in this Advertisement and for the obligations of the Acquirers as laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereof. All other terms and conditions of the Offer shall remain unchanged. This Advertisement will also be available on the website of SEBI i.e. www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers (A) FINTELLECTUAL

Fintellectual Corporate Advisors Private Limited

Corporate Off.: B-20, Second Floor, Sector 1, Noida 201301. Tel No.: +91-0120-4266080; E-mail: info@fintellectualadvisors.com Website: - www.fintellectualadvisors.com, Contact Person: Mr. Amit Puri SEBI Registration No.: INM000012944

Validity: Permanent | CIN: U74999DL2021PTC377748

Shweta Kalra Rachna Kalra Place: Noida (Acquirer 2) (Acquirer 1) Date: 23.08.2025

प्रपत्र बा सार्वजनिक घोषणा							
(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया)							
	(भारताय दिवाला और शायन अक्षमता बांड (पारसमापन प्राक्रया) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अंतर्गत)						
	वीएस मैट्रिक्स प्राइ						
	हितधारकों र						
	प्रासंगिक	विवरण					
क्र.	विवरण	जानकारी					
1.	कॉपोर्रेट देनदार का नाम	वीएस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड					
2.	कॉपोर्रेट देनदार की निगमन की तिथि	14.12.1990					
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉपोरेंट देनदार का निगमन/पंजीकरण हुआ है	आरओसी दिल्ली					
4.	कॉपोरेंट देनदार की कॉपोरेंट पहचान सं./सीमित देयता पहचान सं.	U74899DL1990PTC040510					
5.	कॉपोरेंट देनदार का पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	नं. ४८६, पाटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110092					
6.	दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि	20.08.2025 (20 अगस्त, 2025)					
7.	कॉपोरेंट देनदार की परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	21.08.2025 (आदेश 21.08.2025 को प्राप्त हुआ)					
8.	परिसमापक के रूप में कार्य कर रहे दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री राहुल जिंदल, पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02649/2021-2022/14048					
9.	बोर्ड के साथ यथा पंजीकृत परिसमापक का पता और ईमेल	jindalrahul60@gmail.com					
10	परिसमापक से पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ईमेल	liq.vsmatrix@gmail.com					

11 दावों को जमा करने की अंतिम तिथि 20.09.2025 (20 सितंबर, 2025) एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नई दिल्ली खंडपीठ III ने 21/08/2025 (21 अगस्त, 2025) को वीएस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापन की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। वीएस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त क्रमांक10 के समक्ष उल्लिखित पते पर दिनांक

20.09.2025 (20 सितंबर, 2025) तक परिसमापक के पास प्रमाण सहित अपने दावे जमा करें। वित्तीय क्रेडिटरों को अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से प्रस्तत करने होंगे। अन्य सभी क्रेडिटरों अपने दावे. प्रमाण सिंहत, व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। दाबे का गलत या भ्रामक) प्रस्तुत करने पर दण्डित किया जा सकता है।

> हस्ता/-राहुल जिंदल परिसमापक वीएस मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड आईपी पंजीकरण सं: IBBI/IPA-001/IP-P-02649/2021-2022/14048

ईमेल आईडी: jindalrahul60@gmail.com दिनांक: 25.08.2025 (असाइनमेंट हेतु प्राधिकार 30.06.2026 तक मान्य) स्थान: दिल्ली संचार का पता: 6772/2, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली: 110005



HHFGAZHOU22000027071

HHFDELHOU20000007354

दिनाँक : 25-08-2025

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड **संपर्क पता :** ए- 6, तृतीय तल, सेक्टर- 4, नोएडा- 201301 पंजी. कार्यालय : 09, सामुदायिक केन्द्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 दूरभाष: 011 49267000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8800, ई—मेल: customer.care@herohfl.com, वेबसाइट: www.herohousingfinance.com

सीआईएन : U65192DL2016PLC30148

माँग सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की घारा 13(2) के अंतर्गत।

अंतर्गत और नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, अधिनियम की घारा 13(2) के अंतर्गत पहले ही विस्तृत माँग सूचनाएं दिनांकित निम्नानुसार निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ता(ओं) / सह-ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) (सभी एकल रूप में अथवा संयुक्त रूप में एक साथ "दायित्वधारकों" के रूप संदर्भित) / विधिक उत्तराधिकारी(रियो) / विधिक प्रतिनिधि(यों), यहां नीचे सूचीबद्ध, को संबंधित माँग सूचना / ओं में अंकित राशिये हा, संबंधित सूचना∕ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारक(गण) / विधिक उत्तराधिकारी(गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे इच्छुक हैं, संबंधित प्रति को अघोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में. एतदद्वारा उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को एक बार पुन मुचित किया जाता है कि वे एचएचएफएल को, संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों व क्षमक्ष यहां इसमें निम्न उल्लिखित राशियों का, उक्त दायित्वधारक(रियों) द्वारा निष्पादित ऋण अनुबंध तथा अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित, रतंभ (घ) में निम्नांकित संबंधित तिथियों से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूली होने की तिथि तक आकलित निम्न विवरणितानुसार शावी ब्याज के साथ, भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान हेर् प्रतिभूति के रूप में, उक्त दायित्वधारक(रियों) द्वारा निम्नलिखित प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को एचएचएफएल के पास क्रमशः बंधव

रखा गया ह :					
ऋण खाता सं.	दायित्वघारी(रियों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक	निम्न तिथि* के अनुसार कुल बकाया	माँग सूचना की तिथि		
	प्रतिनिधि(यों) के नाम	देयराशि (रु.)	एनपीए की तिथि		
HHFDELHOU20000011522			18-अगस्त-2025		
	आरती पत्नी सुरेश कुमार,	13.08.2025 को	04—अगस्त—2025		
प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : डीडीए जनता पलैट संख्या 774, प्रथम तल पर, ग्रुप-3, पॉकेट-सी, हस्तसाल, आवासीय योजना, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित।					
HHFLAXHOU21000018242			16—अगस्त—2025		
	सुभाष चंदर	13.08.2025 को	04_311347_2026		

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : निर्मित संपत्ति संख्या बी–19/5 (पुराना संख्या 19 लॉक—बी, क्षेत्रफल 57 वर्ग गज (अर्थात 47.66 वर्ग मीटर) खसरा संख्या 23/6 में से, ग्राम–पोसंगीपुर, दिल्ली राज्य, कॉलोन ाम दत्त एन्क्लेव, उत्तम नगर, नई दिल्ली−110059 के क्षेत्र में स्थित, की छत⁄छत के अधिकार सहित पूरी दूसरी मंजिल का पूर कुडा। भवन की सीमाः उत्तरः संडक 10 फीट, पूर्वः अन्य प्लॉट, दक्षिणः संपत्ति संख्या बी–19/4 प्लॉट संख्या बी–19 का भा

HHFDELHOU19000005092 रिम्पा कर्माकर ਓ. 20,98,135 /-19.08.2025 को 07--अगस्त-2025 प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : छत के अधिकार सहित परी तीसरी मंजिल, फ्रीहोत संपत्ति संख्या- ई-67 से बाहर, भूमि क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, खसरा संख्या 15/9 में से, मटियाला कॉलोनी गाँव के क्षेत्र ह्थत. जिसे मनसा राम पार्क ब्लॉक ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली— 110059 के नाम से जाना जाता है। सीमाः पूर्वः संपत्ति का भाग शिचमः प्लॉट संख्या 68, उत्तरः सड़क 20 फीट, दक्षिणः प्लॉट का भाग सतीश पुत्र रामकिशन, सोनिका चौधरी, HHFDELHOU19000001880 18-अगस्त-2025 ₹. 13,18,535 /-

13.08.2025 को प्रतिभूत परिसंपत्तियाँ / अचल संपत्तियाँ / बंधककृत संपत्तियाँ का विवरण : संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, भूतल, सामने व भोर, रेम.आई.जी. (छर्न के अधिकार के बिना), प्लॉट संख्या 38, खसरा संख्या 353 एम, पुष्प विहार, गाँव— सादुल्लाबाद, लोर्न गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201102, क्षेत्रफल 51.09 वर्ग मीटर। पूर्व — दीगर प्लॉट, पश्चिम — क्रेता की संपत्ति; उत्तर — 2 ठीट चौडी सडक, दक्षिण – दीगर प्लॉट

18-अगस्त-2025

04-अगस्त-2025 प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : फ्लैट नं. एसएफ–3, दूसरी मंजिल, पीछे बाईं ओर संख्या ए—94. खसरा संख्या 348 पर निर्मित. क्षेत्रफल 320 वर्ग फट यानी 29.73 वर्ग मीटर. विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 जिसमें एक शयनकक्ष, एक बैठक कक्ष, एक रसोईघर और दो शौचालय, रनानघर और बालकनी हैं। सीमा :– उत्तरः कॉमन पैसेज और फ्लैट एसएफ-2, पूर्वः प्लॉट संख्या ए-95, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः कॉमन पैसेज और फ्लैट एसएफ-4

शेखर पुत्र राम प्रसाद, शीतल नीम HHFLAXHOU22000024057 ₹.12,70,988 / -13.08.2025 को 04-अगस्त-2025 प्रतिभूत पिरसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : फ्लैट संख्या जी-3 (एलआईजी), पीछे बाई ओ तिल, बिना छत के अधिकार के, जिसमें गिरवी रखा गया बेडरूम, एक डाइंग रूम, एक रसोई और एक शौचालय/रनानघर .. जेसका आवत्ता क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर है जो प्लॉट संख्या बी–1 / 78, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन—ii हदबस्त, गाँव ब्रह्मपु उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201005 पर निर्मित। सीमा :– उत्तरः पलैट संख्ये

जी−2, पूर्वः सी पैसेज और फ्लैट संख्या जी−1, दक्षिणः फ्लैट संख्या बी−1 ⁄ 79, पश्चिमः अन्य की संपत्ति।

विक्की शर्मा, नुपूर

पुत्री मणि कुंडल, 13.08.2025 को 07-अगस्त-2025 एम के चौधरी **प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण :** तीसरी मंजिल, पीछे की ओर, दाईं ओर, छत के मिंत संपत्ति, संख्या सी–108, कुल 200 वर्ग गज क्षेत्रफल में से 50 वर्ग गज यानि 41.81 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, खसर संख्या 102 / 21 में से, गांव— पालम, दिल्ली एस्टेट दिल्ली, क्षेत्र आबादी के राजस्व संपदा में स्थित है, जिसे कॉलोनी विश्वास ार्क. उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 के रूप में जाना जाता है, जो नीचे की भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ, सामान सीढ़ी, मार्ग, प्रवेश द्वार के साथ, भूतल पर सामान्य एक दोपहिया वाहन पार्किंग स्थान क्षेत्र, बिजली पानी और सीवर कनेक्शन व साथ विधिवत सुसज्जित है। सीमाः उत्तरः प्लॉट का हिस्सा, पूर्वः 10 फीट चौड़ी गली, दक्षिणः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः प्लॉट क

₹. 15,42,550 /-

HHFNSPHOU22000030392 हीना आडवाणी, ₹. 27,12,947/-19.08.2025 को 04-अगस्त-2025 प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : ब्लॉक-ई, भूतल पर निर्मित स्लम फ्लैट संख्य –49–ए, मादीपुर, अब शिवांगी कुंज के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी, ठह–1 के सामने, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 10063 में स्थित। सीमा :- उत्तरः प्लैट संख्या बी-48-ए, पूर्व : अन्य फ्लैट, दक्षिण : सीढियाँ, पश्चिम : प्रवेश / पार्क।

HHFNSPHOU24000046073 कुणाल भाटिया, ₹. 14.33.662 /-21-अगस्त-2025 19.08.2025 को प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : निर्मित भूतल (पीछे की ओर) बिना छत के अधिका संपत्ति संख्या सी–143 में से, क्षेत्रफल 55.5 वर्ग गज यानी 46.41 वर्ग मीटर, आयत संख्या 17, किला संख्या 14 में से, गाँव-मालतपर खादर दिल्ली एस्टेट दिल्ली कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित जिसे जीवन पार्क ब्लॉक—सी पंखा रोड उत्तम नगर न

देल्ली के नाम से जाना जाता है। **सीमा :– उत्तरः** स्टिल्ट फ्लोर का भाग, फिर 18 फीट चौड़ी सड़क; **दक्षिण:** मार्ग, **पूर्व**: संपि

*ऊपर अंकित संबंधित माँग सूचना उपरांकित दिनांक में अधिक विशिष्ट रूप में उल्लेखितानुसार दर पर भावी ब्याज, अतिरिक्त व्याज, आकस्मिक व्यय, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार एचएचएफएल को भुगतान करने में विफल होंगे, तो एचएचएफएल उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों)/अचल संपत्ति(यों) के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) के संपूर्ण जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के

उक्त दायित्वधारक(रियों)/विधिक उत्तराधिकारी(रियों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किय जाता है कि वे एचचएफएल की पूर्व लिखित अनुमति—सहमति के बिना उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) अचल संपत्ति क विक्रय, पटटा के माध्यम से अथवा अन्यथा हरतांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसव अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा / अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

Place: Indore. हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कृते हीरो हाउंसिंग फाइनेंस लिमिटेड

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED

> Corporate Identification Number: L55209MP2018PLC076125 Registered Office: H-1 Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore, Indore- 452010, Madhya Pradesh, India Tel. No. +91-731-4006666; Email: cs@shilindore.com Website: www.shilindore.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 7,92,118 (SEVEN LAKHS NINETY TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND EIGHTEEN ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.00% OF TOTAL VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY, BY CENTURY 21 OFFICESPACE PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER") TOGETHER WITH PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER NAMELY, CENTURY 21 TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED ("PAC-1"), M.P.ENTERTAINMENT & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED ("PAC-2"). PRINT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED ("PAC-3") (HEREINAFTER PAC-1, PAC-2, PAC-3 COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED (THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") (HEREINAFTER ALTOGETHER REFERRED TO AS THE "OPEN OFFER" OR "OFFER").

This advertisement ("Post Offer PA") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("Manager to the Offer") on behalf of Acquirer along with PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. This Post-Offer Advertisement should be read. in continuation of, and in conjunction with the:

- a) Public announcement dated February March 28, 2025 ("Public Announcement" or "PA");
-) Detailed public statement dated April 07, 2025 published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (al editions), Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) and Madrasmani (Chennai Edition) ("Detailed Public Statement" or "DPS"); b) Draft letter of offer dated April 16, 2025 ("DLOF");
- d) Letter of offer dated July 15, 2025 ("Letter of Offer" or "LOF");
- e) Corrigendum to DPS dated July 11, 2025 published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) and Madrasmani (Chennai Edition) ("Corrigendum to DPS"); and
- Pre-offer advertisement dated July 24, 2025, published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Mumbai Lakshdeep (Mumbai edition), Madrasmani (Chennai Edition) and Indore Samachar* (Indore Edition) ("Pre-Offer PA"). *Pursuant to change in the registered office address of the Target Company from Chennal to Indore w.e.f. April 15, 2025 we have additionally released Pre-Offer PA, IDC Recommendations and this Post Offer PA in Indore Samachar.

Capitalized terms used but not defined in this Post-Offer PA shall have the same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer, the Pre-Offer PA and Corrigendum to DPS. The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer:

1.	Name of the Target Company:	Sayaji Hotels (Indore) Limited
2	Name of the Acquirer and PACs:	Century 21 Officespace Private Limited Century 21 Town Planners Private Limited M.P.Entertainment & Developers Private Limited Print Solutions Private Limited
3.	Name of the Manager to the Offer:	Systematix Corporate Services Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer:	MUFG Intime India Private Limited (Formerly Known as Link Intime India Private Limited)
5.	Offer Details:	
	a. Date of Opening of the Offer	Friday, July 25, 2025
	b. Date of Closure of the Offer	Thursday, August 07, 2025
6.	Date of Acceptance/Rejection:	Wednesday, August 20, 2025
7	Date of Payment of Consideration:	Thursday August 21, 2025

7. Date of Payment of Consideration: Thursday, August 21, 2025 Details of Acquisition: SI. **Particulars** Proposed in the Actuals No. Offer Document Offer Price (per Equity Share) Rs. 1250 Fully Paid-up Shares Rs. 1250 Not applicable Not applicable Partly Paid-up Shares 8.2 Aggregate number of shares tendered 7,92,118 3,78,251

7,92,118 3,78,251 Aggregate number of shares accepted Rs. 99,01,47,500 Size of the Offer Rs. 47,28,13,750 (Number of shares multiplied by Offer Price per share). Shareholding of the Acquirer and the PACs before Agreement Public Announcement 7,35,930 7,35,930 % of total Share Capital & Voting Capital 24.16% 24.16% 8.6 Shares acquired by the Acquirer by way of Agreements 82,755 82,755 Number 2.72% 2.72% % of total Share Capital & Voting Capital Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer and the PACs 7,92,118 3,78,251 Number 26.00% 12.42% % of total Share Capital & Voting Capital Shares acquired by the Acquirer and the PACs after Detailed Public Statement Number of shares acquired NIL Price of the shares acquired Not Applicable Not Applicable NIL % of the shares acquired NIL Post offer shareholding of the Acquirer and the PACs 16,10,803 11,96,936 Number 52.87% 39.29% % of total Share Capital & Voting Capital 8.10 Pre & Post offer shareholding of the Public Pre-Offer* Pre-Offer Post-Offer* Post-Offer* Number 9,67,771 1,75,653 9,67,771 5,89,520 % of total Share Capital & Voting Capital 31.77% 19.35% 31.77% Excluding the Acquirer, the PACs and the existing Promoter and Promoter Group of the Target Company

Post Open Offer, it is found that the Target Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in terms of SEBI (LODR) Regulations read with Securities Contract (Regulations) Rules, 1957 as amended. The Acquirer and the PACs including existing Promoter and Promoter Group of the Target Company will jointly comply with the provisions of Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations to maintain the MPS in accordance with the SCRR and the applicable laws.

 Post Open Offer, the Acquirer along with the PACs will hold 11,96,936 Equity Shares aggregating to 39.29% of Voting Share Capital of the Target Company.

The Acquirer and the PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer PA and also for the obligations as laid down in the SEBI (SAST) Regulations.

 This Post-Offer PA will also be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com) and Manager to the Offer (www.systematixgroup.in).

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND THE PACS Systematix Corporate Services Limited



The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606, Plot No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Telephone: +91-22-6704 8000 Fax +91-22-6704 8022 Email: ecm@systematixgroup.in Contact Person: Mr. Kuldeep Singh SEBI Registration Number: INM000004224 MUFG Intime India Private Limited



C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India. Tel. No.: +91-8108114949 Email: sayajihotels.offer@in.mpms.mufg.com Contact Person: Pradnya Karanjekar SEBI Registration Number: INR000004058

For and on behalf of the Acquirer and the PACs

Date : August 23, 2025

Century 21 Officespace Century 21 Town Planners Private Limited Private Limited Acquirer PAC-1

M.P. Entertainment & **Developers Private Limited** PAC - 2

Print Solutions Private Limited PAC - 3

epaper.jansatta.com

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கு இலவச பாடநூல் வெளியீடு



சென்னை,ஆக.25– ஆட்சித்தமிழ்ஐ.ஏ.எஸ் அகாடமி சார்பில் 2025ம் ஆண்டுக்கான ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கு இல வச பாடநூல் தொகுப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆட்சித்தமிழ் ஜ**.ஏ. எஸ் அ**காடமி சார் பில் 2025ம் ஆண்டுக்

தேர்வுக்கு (தாள்1 மற்றும் இலவச தொகுப்பு பாடநூல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பாடநூல் இந்தப் தொகுப்புகளை வாட்ஸ் அப் வழியாக முன்பதிவு

செய்து இலவசமாக பெற

கான ஆசிரியர் தகுதித்

லாம் என ஆட்சித்தமிழ் ஜ.ஏ.எஸ் அகாடமி அறி வித்துள்ளது. சென்னையில் இயங்கி ஆட்சித்தமிழ் வரும் ஐ.ஏ.எஸ் அகாடமி, கடந்த 18 ஆண்டுகளுக் கும் மேலாக மத்திய மாநில அரசுகள் நடத்தும் அனைத்துப் போட்டித் தேர்வுகளுக்கும் சிறப்பான முறையில்

னம் ஆகும். இந்த அகாடமியில் ஆண்டுகளில் படித்தவர்கள், ஆசிரியர் தேர்வுகளில் வெற்றிபெற்று பல ஆயி

முன்னணி பயிற்சி நிறுவ

பயிற்சியளித்து

டோர்,தமிழகமுழுவதும் அரசுப் பள்ளிகளில் ஆசி ரியர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.

ஆட்சித்தமிழ்ஐ.ஏ.எஸ் அகாடமி இயக்குநர் ச.வீரபாபு தொகுத்துள்ள, **ஆ**சிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கான பயிற்சி நூல் களை, தமிழ்நாடு காவல் துறை முன்னாள் தலை வர் திரு. ஆர்.நட்ராஜ் ஐ.பி.எஸ் வெளியிட, மூத்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி திரு. ஜவகர் ஐ.ஏ.எஸ் பெற்றுக்கொண்ட போது எடுத்தப்படம்

ஆசிரியர் தகுதித் தேர் வுக்கு இலவச பாடநூல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரி யம் சார்பில் 2025ம் ஆண் டுக்கான தமிழ்நாடு ஆசி ரியர் தகுதித் (தாள்1 மற்றும் தாள்2) தேர்வுகள் 15.11.2025 அன்று தாள்1 16.11.2025 மற்றும் அன்று தாள்2ம் நடை பெற உள்ளது.

இந்த தேர்வுகளை எழு தும் ஆசிரியர்களின்வெற் றிக்கு உதவும் வகையில், புதிய பாடத்திட்டத்தின் பாடப்புத்தகங்களை 'ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நோக்கில்' தொகுத்து தொகுத்து இந்த 'ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு பாடநூல்' தயாரிக் மேற்பட் கப்பட்டுள்ளது.

பெரியகுளத்தில் பள்ளி சிறுமிக்கு 4 மாத கைக்குழந்தை வாலிபர் கைது

வரும்

பெரியகுளம், ஆக. 25– பள்ளிசிறுமியைஏமாற்றி திருமணம் செய்து நான்கு மாத குழந்தையை பரிசாக வாலிபரை போலீசார் கைது செய்துள்

குளம் வடகரை தேவேந்தி ரபரத்தை சேர்ந்த 15 வயது பள்ளி சிறுமி. இச்சிறுமிக்கு பெற்றோர்கள் இல்லாத தால் இவரது உறவினர்கள் பராமரிப்பில் அப்பபகுதி யில் உள்ள பள்ளியில் பயின்று வந்தார்இந்த நிலையில் கம்பம் அண் ணாபுரம் கே.கே.பட்டியை சேர்ந்த சுரேஷ் பாண்டி வயது 23 இவருக்கும் இந்த பள்ளி சிறுமியின்உறவினர் நிகெழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்த சுரேஷ் பாண்டி இவருக்கும் இவர் களுக்குள் காதல் மலர்ந்த தாக கூறப்படுகிறது காத லிப்பதாக கூறி கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம்சு ரேஷ் பாண்டி பள்ளி சிறு மியை திருமணம் செய்து

கொண்டனர் இந்த நிலை யில் தற்போது சிறுமிக்கு பள்ளி சிறுமிக்கு நான்கு மாத ஆண் குழந்தை உள் ளது இந்த நிலையில் குழந் தைகள் நலத் துறைக்கு அப் தேனி மாவட்டம் பெரிய பொதுமக்கள் தகவல் நிலையில் கம்பம் சமூகநல துறைஅலுவலர் முருகேஸ் வரி இச்சம்பவம் குறிக்கு விசாரித்து உத்தமபாளை யம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

இந்த புகார்பேரில் போலீ சார் சுரேஷ் பாண்டியை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் 4 மாத கைக் குழந்தையுடன் பள்ளி சிறு மியின் இச் சம்பவம் அப்ப குதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது இந்நி லையில் பள்ளி சிறுமியை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு பெண் கள் நல காப்பகத்திற்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்

சட்டசபை தேர்தலில் விஜய்யுடன் கூட்டணியா? கிருஷ்ணசாமி பதில்

சென்னை,ஆக.25– புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் டாக்டர் கிருஷ் ணசாமி நேற்று சென்னை த.வெ.க.வுடன் கூட் யில்செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார் . அவர் கூறியதாவது,

ஜனவரி 7ந் தேதி மது ரையில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் 7வது மாநில மாநாடு நடைபெற உள் ளது. இந்த மாநாட்டில் சட்டசபை தேர்தல் கூட் டணி குறித்தான தீர்மா னங்கள்நிறைவேற்றப் பட உள்ளன.ஆணவ படுகொலையை தடுக்க சட்டம் இயற்ற வேண் டும். பள்ளி பாடப்புத்த கத்தில் அது குறித்தான பாடங்களை சேர்க்க வேண்டும். த.வெ.க. மாநாட்டை விஜய் வெற் றிகரமாக நடத்தியுள்

ளார். அங்கிள் என்ற வார்த்தை ஒன்னும் கெட் டவார்த்தை கிடையாது. டணி சேர்வீர்களா என்று கேட்கிறீர்கள். எங்கள் கட்சி மாநாட்டிற்கு பிறகு தான் எதுவாக இருந்தா லும் கூற முடியும்.

தமிழகத்தில் 70 ஆண் டுகளாக திரைபிம்பத்தை வைத்து தான் அரசியல் கட்டமைக்கப்பட்டுள் ளது. ஆனால் விஜய்யை மட்டும் ஏன் டார்க்கெட் செய்கிறார்கள். நாளுக்கு மேல் சிறையில் இருக்கும்முதல்அமைச்

சரை பதவியில் இருந்து நீக்கக்கூடிய சட்டத்தை புதிய தமிழகம் கட்சி வர வேற்கிறது.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

திருப்புவனம் அருகே வைகை ஆற்றில் மூழ்கி பள்ளி மாணவன் சாவு

குளிக்க சென்றபோது சம்பவம்

சிவகங்கை, ஆக.25 சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் புதூரைச் சேர்ந்தவர் முகமது யாசின் இவரது மகன் முகமது தாஹிர் (13) இப்பகுதியில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 8ம் வகுப்பு படித்து வரும் நிலையில் தனது நண்பர்க . ளுடன் வைகை ஆற்று படுகை அணையில் குளிக் கும் போது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார். இச்சம்ப வம் இப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்

நேற்று பள்ளி விடுமுறை என்பதால் ஆற்றில் உள்ள ஆற்று படுகை நீரில் குளிப்பதற்காக முகமது

தாஹிர் தனது நண்பர்களு சென்றுள்ளனர் குளித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எதிர்பாராத விதமாக ஆழ மான பகுதிக்கு முகமது தாஹிர் சென்றுள்ளார் ஆழ மான பகுதி என்பதால் கரைக்கு திரும்ப முடியா மல் நீரில் மூழ்கி முகமது தாஹிர் இறந்து போன சம் இப்பகுதியில் சோகத்தினை பெரும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உடனடியாக இச்சம்பவம் குறித்து மானாமது ரை தீய ணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கெரிவிக்கப்பட்டதுடன் சம்பவ இட<u>த்</u>திற்கு விரைந்து



ணைப்பு நீண்ட நேரம் போராட்டத் திற்கு பின் நீரில் மூழ்கி இறந்த முகமது தாஹிரின் உடலை மீட்டு எடுத்துள்ள இது குறித்து திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு செய்து பகிவு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தமிழ் மொழி சரித்திர புகழ் வாய்ந்தது சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி பேச்சு

திருச்சி,ஆக. 25-திருச்சி வக்கீஸ் சங்கம் சார்பில் தனியார் ஓட்ட லில் நேற்று மின்னணு நூலக மையம் தொடக்க விழா நேற்று நடந்தது. சங்க தலைவர் எஸ். பி.கணேசன் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்தார்.

இந்த விழாவில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி சூர்ய சிறப்பு விரு**ந்**தினராக கல**ந்**து கொண்டு மின்னணு நூல கத்தை தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார்.

அப்போது அவர் பேசி

பல ஆண்டு அனுபவம் கொண்ட திருச்சி வக்கீல் சங்கம் பல புகழ் வாய்ந்த வக்கீல், நீதிபதிகளை உரு வாக்கியுள்ளது. சட்டத்து றையில் புகழ் பெற்று விளங்கிய பாலசுந்தரம் தொடங்கி பெயரில் வைக்கப்பட்ட மின்னணு நூலகத்தை இளம் வக் கீல்கள் பயன்படுத்தி தங் கள் திறனை மேம்படுத் திக் கொள்ள வேண்டும். தமிழ் மொழி சரித்திர புகழ் வாய்ந்தது. தமிழ் மறை திருக்குறளில் கூறப் படாததகவல்கள் எதுவும் அடுத்த முறை திருச்சி வரும் வாழ்நாள் முழுவதும் இனிமையான கல்வி பயிலுவது, தகவல் போது

தமிழ் மொழியில் பேச முயற்சிக்கிறேன்.

அதேபோல இங்கு தொடங்கப்பட்ட தரவு தளத்தை பயன்படுத்தி இதற்கு முன்பு வழங்கப் பட்ட தீர்ப்புகள், வழக்கு விவரங்களை இளம் வக் கீல்கள் தெரிந்து கொள்ள ேவண் டும். மூத்தவர்களின் அனுப வங்கள் வளரும் தலைமு றையினருக்கு பயனுள்ள தாக இருக்கும். பல்வேறு நீதிமன்றங்களில் நடக் கும் அன்றாட செய்தி களை வக்கீல்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சட் டம் தொடர்பான ஆராய்ச் சியில் வக்கீல்கள் ஈடுபட

களை தெரிந்து கொள்வ ஆர்வம் காட்ட வேண்டும்.நான் சட்டம் முடித்து முதல் முறையாக கோர்**ட்**டுக்கு சென்ற போது எனது சீனியர் அனைத்து தகவல்களை வேண்டுமா கொள்ள னால் மெட்ராஸ் ஜர்னல் எனும் புத்தகத்தை நாள் தோறும் படிக்க வேண் டும் என அறிவுறுத்தி னார்.

பரியவ்ராய சென்னை கொண்ட ஜகோர்ட்டு பல சிறந்த வக்கீல்கள், நீதிபதிகளை உருவாக்கிய பெருமை கொண்டது. இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

பெரியகுளம் அருகே அரசு பஸ் **மோதி மாற்றுத்திறனாளி பலி** ஓட்டலில் சாப்பிட சென்றபோது சோகம்

பெரியகுளம், ஆக. 25– பெரியகுளம் அருகே அரசு பஸ் மோதி மாற்றுத் திறனாளி உயிரிழந்தார் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளம் அருகே தேவதா னப்பட்டி தெற்கு தெரு வில் வசித்து வரும் கருப்பையா (65).

இவர் மாற்றுத் திற னாளி ஆவார் இந்நிலை நேற்று திண்டுக்கல் வத்த

லகுண்டு சாலையில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிடுவதற்காக சென் றுள்ளார். இந்நிலையில் அவ் வழியாக பெரிய குளத்தை நோக்கி வந்த அரசு பஸ் கருப்பையா மீது மோதியது படுகாயம் அடைந்த கருப்பையா அக்கம்பக்கம் உள்ளவர் கள் உதவியுடன் 1 08 ஆம் சம்பவத்தன்று புலன்ஸ் மூலம் தேனி அரசு கானா விஸக்கு

மருத்துவமனைக்கு சிகிச் சைக்காக அனுமதிக்கப் பட்டார். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி கருப்பையா பரிதாபமாக இறந்தார்.

இச்சம்பவம் குறித்து தேவதானப்பட்டி போலீ சார் வழக்குப் பதிவு செய்து அரசு பஸ் டிரை வர்உத்தம பாளையத்தை சேர்ந்த மகேந்திரனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சிட்டெட்டு Home Finance கூட்டிய கூறுவலகம்: ஐசிஐசிஐ ஹோம் : பைனாள்ஸ் கம்பெளி லிமிட்ட ஐசிஐசிஐ எச்எ:ப்சி டவர், அத்தேரி (கிழக்கு), மும்பை - வண்டு, இந்தியா

கிளை அலுவலகம்: ஐசிஐசிஐ ஹோம் ∴பைனாள்ஸ் கம்பெளி லிமிடெட், அபெக்ஸ் சேம்பர், என். 3 ஐக் கொண்ட அலுவலகப் பகுதி. 3வது தளம், என்.20

ுதால் அதுகலை இரலுக்கு முறாம் ஃபைளாள்ஸ் கம்பெளி லிபிடெட், அபெக்ஸ் சேம்பர், என். 3 ஐக் கொண்ட அலுவலகப் பகுதி. 3வது தளம், என் திபாகராப சாலை, டி. நகர் செள்ளை - 600017 வீதி 8(6)க்கான விதிமுறையைப் பார்க்கவும்] அசையா சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கான அறிவிப்பு நிதி சொத்துக்களை பித்திரமயமாக்கு தல் மற்றும் மறுகட்டமைப்பு செய்தல் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டி அமலாக்கச் சட்டம், 2002 இன் கீழ் அடி சோத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கான மின்னணு ஏல விற்பனை அறிவிப்பு, பாதுகாப்பு வட்டி (அமலாக்க) விதிகள், 2002 இன் வீதி 8(6) விதிமுறையுடன் படிக்கவும்.

பொதுமக்களுக்கு, குடுப்பாக கடன் வாங்குபவர்(கள்) மற்றும் உத்தரவாததார்)(கள்) ஆகீபோருக்கு இதன் மூலம் அடுவீப்பு வழங்கப்படுகிறது. பாதுகாக்கப்பட்ட கடனாளிக்கு அடமானம் வைக்கப்பட்டுள்ள/வசூலிக்கப்படும்,ஐசிஐசிஐ ஹோம் ∴பைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்டின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் அதன் உடைமை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுருக்கமான விவரங்களின்படி, "எங்கே இருக்கிறதோ அப்படியே", "ஏது இருக்கிறதோ அப்படியே" மற்றும் "எது இருக்கிறகோ அப்படியே" அடிவவளிலில் வீட்டமாம்.

வ என்	உன் வாங்குபவர் (கன்)/ இணை கடன் வாங்குபவர்கள்/ உத்தர வாததார்கள்/சட்ட வாரிககளின் பெயர். கடன் கணக்கு எண்.	தெரிந்த வில்லங்கங்களுடன் பாதுகாக்கப்பட்ட சொத்தின் விவரங்கள், ஏதேனும் இருந்தால்	நிலுவையில் உள்ள தொகை	இருப்பு விலை எர்ளஸ்ட் பண வைப்பு	சொத்து ஆய்வு தேதி மற்றும் நேரம்	ஏல தேதி மற்றும் நேரம்	ஏல தேதிக்கு ஒரு நாள் முன்பு	சர்∴பேசி நிலை
(A)	(46)	(8)	(B)	(a_)	(mil)	(a)	(g)	(gg)
1.	பி. சக்தியேந்திரன் (கடன் வாங்குபவர்) கிறிஸ்டின் சக்தியேந்திரன் (இணை கடன் வாங்குபவர்) லேன் எண். LHCTN00001462332 LHCTN00001463167	பினாட் என் F1, முதல் தனம், பிளாட் என் 1. ரோஸ் நகர், நந்திவரம், 445/1. 442/4, துணைப் பிரிவு SNO 442/401, செங்கல்பட்டு, சென்னை, தமிழ்நாடு - 600001	ரு. 19,83, 320/- ஆகஸ்ட் 19, 2025	ஞ. 21,53. 475/- ஞ. 2.15, 348/-	செப்டம்பர் 19, 2025 காலை 11:00 மணி முதல் பிற்பகல் 03:00 மணி வரை	செப்டம்பர் 26, 2025 பிற்பகல் 02:00 மணி முதல் பிற்பகல் 03:00 மணி வரை	செப்படம்பர் 25, 2025 மாலை 05:00 மணிக்கு முள்	உடல் உடைமை
2.	எஸ் ஜோன் (கடன் வாங்கியவர்) ஆர் தமிழரசி (இணை கடன் வாங்கியவர்) லேன் எண்.	கதவு என். 18/சி, அரசு 5வது தேரு, நேரு நக்ர், பழைய TS என். 96, புதிய TS என். 96/1, தொகுதி என். 4, எருக்கஞ்சேரி கிராமம், பேரம்பூர் தாலுகா, சென்னை மாவட்டம் . தமிழ்நாடு -600118	ஆகஸ்ட் 19, 2025	ஞ. 24,58, 800/- ஞ. 2,45,880/-	செட்டம்பர் 19, 2025 காலை 11:00 மணி முதல் பிற்பகல் 03:00 மணி வரை	செட்டம்பர் 26, 2025 பிற்பகல் 02:00 மணி முதல் பிற்பகல் 03:00 மணி வரை	செப்பம்பர் 25, 2025 மாலை 05:00 மணிக்கு முன்	குறிபிட்டு உடைமை

ஆய்வு, ஒருத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் அல்லது டென்டர்களை சமர்ப்பித்தல் தொடர்டான சுடுதல் விளக்கங்களுக்கு, தயவுசெய்து 9920807300 என் ள்ளில் ஹோம் ∴பைனாள்ஸ் கம்பெளி லிமிடெட்டைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

ம்லும் எந்த காரளங்களையும் தெரிவிக்காமல் ஏதேனும் அல்லது அளைத்து ஏலங்களையும் நிராகரிக்க அங்கீகரிங்கப்பட்ட அதிகாரிக்கு உரிமை உண்டு மீற்பளையின் விரிவாள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு, தயவுசெய்து https://www.iciohfc.com/ ஐப் பார்வையிடவும்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, "ஐசிஐசிஐ ஹோம் ∴பைனான்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்", CIN என்: U69922MH1999PLC120106



நிதி சொத்துக்களின் பத்திரமயமாக்கல் மற்றும் மறுகட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டி அமலாக்கச் சட்டம், 2002 இன் பிரிவு 13 (2) இன் கீழ் ீழே கையோப்பமிட்டவர் ஐடிஐ ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் விமிடேட்டின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, முன்னர் ஃபாஸ்ட் டிராக் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் விமிட்ட என்று அழைக்கப்பட்டது நிதி சொத்துக்களின் பத்திரமயமாக்கல் மற்றும் மறுகட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டி அமலாக்கச் சட்டம், 2002 இன் கீழ் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டி (அமலாக்க) விதிகளின் விதி 3 உடன் படிக்கப்பட்ட பிரிவு 13 (12) இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் யன்படுத்துவதில், 2002 ஆம் ஆண்டு, மேற்கூறிய சட்டத்தின் பிரிவு 13(2) இன் கீழ், கடன் வாங்குபவர்கள், இணை கடன் வாங்குபவர்கள், இணை கடன் வாங்குபவர்கள், உத்து வருக்கு மற்றுக்கு அறிவிடிகள் ஆகியோர் நிறுவனத்திற்கு நக்கள் முழுப் பொறும்பையும் முழுமையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டனர். உத்து வருகியிடிகள் ஆகியோர் நிறுவனத்திற்கு தங்கள் முழுப் பொறுகுருக்கு அறிவோதைய வடிடி, சேஷவு மற்றும் கட்டணங்கள் உட்பட நிலுவைத் அரசுகையை செலுத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை வெளியிட்கு, மாற்று சேவைக்கான வழியை வழங்க வேண்டும். கடணை முறையாக நிருப்பிச் செலுத்துவதற்கான பாதுகாப்பாக, பின்வரும் பாதுகாக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் முறையே மேற்கூறிய கடன் வாங்குபவர்கள், இணை கட்டு தபவர்கள், உத்தரவாததாரர்களால் ஐடிஐ ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (முன்னர் ஃபாஸ்ட் டிராக் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் னத்திற்கு அடமானம் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கடன் கணக்கு எண்/கடன் வாங்கியவரின் கோரிக்கை _{மோத்த}

பெயர் / இணை கடன் வாங்கியவர் / உத்தரவாதம் அளித்தவர் - முகவரி	அறிவிப்பு தேதி NPA தேதி	நிலுவைத் தொகை	பாதுகாக்கப்பட்ட சொத்து(கள்) அசையாச் சொத்தின் விளக்கம் (அதாவது)			
1. புவனேஸ்வரன் வெங்கடேஷ் (கடன் வாங்கியவர்) முகவரிஅங்கு: 56, 57, 60 - 61, தள எண்: 61, மகாலட்சுமி நதர், வீரபாண்டி கிராமம், திருப்பூர், தெற்கு தாலுகா, திருப்பூர், மாவட்டம், புதிய S.F.எண்: 56/1A1A1A1, கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு - 641687. 2. வெங்கடேஷ் பெருமான் (இணை கடன் வாங்கியவர்) 3. புஷ்பா வெங்கடேஷ் (இணை கடன் வாங்கியவர்) அனைத்து முகவரிகளும். 1வது தெருதிபன் நகர், திருப்பூர், தமிழ்நாடு-641604 கடன் கணக்கு எண். LHTIRO0723-240003398	21-08-2025 08/08/2025	ரு. 21,81,435/- 20/08/2025 அன்று	S.F. எண். 56, புதிய துணைப்பிரிவு S.F. எண். 58'1A1A1A1, S.F. எண். 57' புதிய துணைப்பிரிவு S.F. எண். 57' 1A2, S.F. எண். 60, புதிய துணைப்பிரிவு S.F. எண். 60' A1AA, S.F. எண். 61, புதிய துணைப்பிரிவு எஸ். எ-ப். எண். 60' A1AA, S.F. எண். 61, புதிய துணைப்பிரிவு எஸ். எ-ப். எண். 61' A. மொத்த பரப்பளவு 1200 சதர அடி, மனை என். "மகாலட் சுமி நகர்" தள எண். 61 இன் கிழக்குப் பகுதி, திருப்பூர் மாவட்டம், திருப்பூர் தெற்கு தாலுகா, நல்லூர் துணைப் பதிவு மாவட்டம், திருப்பூர் தெற்கு தாலுகா, வரபாண்டி கிராமம். நிலத் தின் அனைத் து பகுதியும் பின்வருமாறு எல்லைகளாக உள்ளன: தள எண். 61 இன் கிழக்குமேற்குப் பகுதி அல்லது நோக்கி, மேற்குதன எண். 60 இல் அல்லது நோக்கி, தெற்குதள் எண். 55 இல் அல்லது நோக்கி, வடக்கு நோக்கி 22 அடி அகலமான கிழக்குமேற்கு கூஷவ், சோலை. அளக்டிட்டு விவரங்கள்: இருபுமும் கிழக்குமேற்கு: 20 அடி, இருபுறமும் தெற்குவடக்கு: 60 அடி, மொத்தம்: 1200 சதுர அடி.			
சான்ன கடன் வரங்குபவர். இணை கடன் வரங்குபவர்(கள்) - உக்கரவரக்கார்(கள்) பணம் செலக்கக் கவரினால், மூறை வைசிங் ஃபைனான்ஸ்						

சொன்ன கடன் வாங்குபவர், இணை கடன் வாங்குபவர்(கள்) - உத்தரவாததார்(கள்) பணம் செலுத்தத் தவறினால், **ஐடிஐ ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ்** வீட்டெடக்கு (முன்னர் ஃபாஸ்ட் டிராக் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் வீட்டெட் என்று அழைக்கப்பட்டது) மேலே குறிப்பெட்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட சொத்தை கைபகப்படுத்த உரிமை உண்டு, மேலும் சட்டப்படி நிறுவனத்திற்குக் கிடைக்கக்கூடிய பிற நடவடிக்கைகளை எடுக்கும், கடன் வாங்குபவர்களின் தபாபங்கள், செலவு மற்றும் விளைவுகளில், மேற்கூறிய கடன் வாங்குபவர்கள், இணை கடன் வருடியத்பவர்கள் மற்றும் உத்து வாததார்கள், **ஐடிஐ** ஹ**வுசிங் ஃபைனான்ஸ் வீட்டெ**ட்டின் முன் அனுமதியின்றி விற்பனை, குத்தகை அல்லது அறிவீட்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேறு வழியில் மேற்கூறிய ராதுகாக்கப்பட்ட சொத்தை (களை) மாற்றுவதற்கு சர்ஃபாசி சட்டத்தின் பிர்வு 13 இன் துணைப்பிரிவு (13) இன் விதிபின் கீழ் கூடு கேர்யப்படுகள்கள்

எஸ்டி∕ அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரி, ஐடிஐ ஹவுசிங் ∴பைனான்ஸ் இடம்: தமிழ்நாடு, தேதி: 25.08.2025

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED

Corporate Identification Number: L55209MP2018PLC076125
Registered Office: H-1 Scheme No. 54, Vijay Nagar, Indore, Indore- 452010, Madhya Pradesh, India Tel. No. +91-731-4006666; Email: cs@shilindore.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 7.92.118 (SEVEN LAKHS NINETY TWO THOUSAND ONE HUNDRED AND EIGHTEEN ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING 26.00% OF TOTAL VOTING SHARE CAPITAL (AS DEFINED BELOW) OF SAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED ("TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY, BY CENTURY 21 OFFICESPACE PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER") TOGETHER WITH PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER NAMELY, CENTURY 21 TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED ("PAC-1"), M.P.ENTERTAINMENT & DEVELOPERS PRIVATE .IMITED ("PAC-2"), PRINT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED ("PAC-3") (HEREINAFTER PAC-1, PAC-2, PAC-3 COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") (HEREINAFTER ALTOGETHER REFERRED TO AS THE "OPEN OFFER" OR "OFFER").

This advertisement ("Post Offer PA") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("Manager to the Offer") on behalf of Acquirer along with PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations. This Post-Offer Advertisement should be read n continuation of, and in conjunction with the:

a) Public announcement dated February March 28, 2025 ("Public Announcement" or "PA"):

b) Detailed public statement dated April 07, 2025 published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) and Madrasmani (Chennai Edition) ("Detailed Public Statement" or "DPS");

Letter of offer dated July 15, 2025 ("Letter of Offer" or "LOF")

Corrigendum to DPS dated July 11, 2025 published in the following newspapers: Financial Express (all editions), Jansatta (all editions), Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) and Madrasmani (Chennai Edition) ("Corrigendum to DPS"); and

Pre-offer advertisement dated July 24, 2025, published in the following newspapers; Financial Express (all editions), Jansatta (al editions), Mumbai Lakshdeep (Mumbai edition), Madrasmani (Chennai Edition) and Indore Samachar* (Indore Edition) ("Pre-Offer PA") Pursuant to change in the registered office address of the Target Company from Chennai to Indore w.e.f. April 15, 2025 we hav additionally released Pre-Offer PA, IDC Recommendations and this Post Offer PA in Indore Samachar.

Capitalized terms used but not defined in this Post-Offer PA shall have the same meaning assigned to such terms in the Lett of Offer, the Pre-Offer PA and Corrigendum to DPS.

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information with respect to the Open Offer:

	rume or the runger company.	out of the control of
2.	Name of the Acquirer and PACs:	Century 21 Officespace Private Limited
		Century 21 Town Planners Private Limited
		M.P.Entertainment & Developers Private Limited
		Print Solutions Private Limited
3.	Name of the Manager to the Offer:	Systematix Corporate Services Limited
4.	Name of the Registrar to the Offer:	MUFG Intime India Private Limited (Formerly Known as Link Intime India Private Limited)
-	Offer Details:	
	a. Date of Opening of the Offer	Friday, July 25, 2025
	b. Date of Closure of the Offer	Thursday, August 07, 2025
6.	Date of Acceptance/Rejection:	Wednesday, August 20, 2025
7.	Date of Payment of Consideration:	Thursday, August 21, 2025
$\overline{}$	P-4-11641-11	

SI.	Particulars	Proposed in the		Act	uals	
No.	07.51.4.5.10	Offer D	Offer Document			
8.1	Offer Price (per Equity Share) • Fully Paid-up Shares	Rs. 1250		Rs. 1250		
	Partly Paid-up Shares	Not applicable		Not applicable		
8.2	Aggregate number of shares tendered	7,92,118		3,78,251		
8.3	Aggregate number of shares accepted	7,92,118		3,78,251		
8.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share).	Rs. 99,01,47,500		Rs. 47,28,13,750		
8.5	Shareholding of the Acquirer and the PACs before Agreement Public Announcement	/				
	• Number	7,35,930		7,35,930		
	% of total Share Capital & Voting Capital	24.16%		24.16%		
8.6	Shares acquired by the Acquirer by way of Agreements					
	Number	82,755		82,755		
	% of total Share Capital & Voting Capital	2.72%		2.72%		
8.7	Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer and the PAC:	1				
	Number	7,92,118		3,78,251		
	% of total Share Capital & Voting Capital	26.	26.00%		12.42%	
8.8	Shares acquired by the Acquirer and the PACs after Detailed Public Statement	1				
	Number of shares acquired	NIL		NIL		
	Price of the shares acquired	Not Ap	Not Applicable		Not Applicable	
	% of the shares acquired	NIL		NIL		
8.9	Post offer shareholding of the Acquirer and the PACs					
	Number	16,10,803		11,96,936		
	% of total Share Capital & Voting Capital	52.87%		39.29%		
8.10	Pre & Post offer shareholding of the Public	Pre-Offer *	Post-Offer*	Pre-Offer*	Post-Offer*	
	Number	9,67,771	1,75,653	9,67,771	5,89,520	
	% of total Share Capital & Voting Capital	31.77%	5.77%	31.77%	19.35%	

Excluding the Acquirer, the PACs and the existing Promoter and Promoter Group of the Target Company Post Open Offer, it is found that the Target Company is not in compliance with the Minimum Public Shareholding (MPS) of 25% in term of SEBI (LODR) Regulations read with Securities Contract (Regulations) Rules, 1957 as amended. The Acquirer and the PACs including existing Promoter and Promoter Group of the Target Company will jointly comply with the provisions of Regulation 7(4) of the SEBI (SAST) Regulations to maintain the MPS in accordance with the SCRR and the applicable laws.

9. Post Open Offer, the Acquirer along with the PACs will hold 11,96,936 Equity Shares aggregating to 39.29% of Voting Share Capital of the Target Company

0. The Acquirer and the PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer PA and also fo

the obligations as laid down in the SEBI (SAST) Regulations . This Post-Offer PA will also be available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in), BSE Limited (www.bseindia.com) and Manager I

the Offer (www.systematixgroup.in). ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND THE PACS



Systematix Corporate Services Limited The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606, Plot No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India Telephone: +91-22-6704 8000 Fax +91-22-6704 8022 Email: ecm@systematixgroup.ir Contact Person: Mr. Kuldeep Singh SEBI Registration Number: INM000004224



MUFG Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India. Tel. No.: +91-8108114949 Email: sayajihotels.offer@in.mpms.mufg.com Contact Person: Pradnya Karanjekar SEBI Registration Number: INR000004058

For and on behalf of the Acquirer and the PACs

Century 21 Officespace Century 21 Town Planners Private Limited Acquirer PAC - 1

M.P. Entertainment & Developers Private Limited PAC – 2 **Print Solutions** Private Limited PAC - 3

Date: August 23, 2025